



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2011 (आश्विन 23, 1933)

No. 42]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2011 (ASVINA 23, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the  
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2011

(थल सेना विभाग)

सं. 454, दिनांक 13 सितम्बर 2011—थल सेना अनुदेश 15/79 व  
उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति, 05 वर्ष की अवधि के लिए  
सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

केप्टन के पद पर (परख पर)

पीयूष पाठक (डीएस-12377डब्ल्यू), 28 अगस्त 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 अगस्त 2007 से दी जाती  
है। इसमें मई 2006 से मई 2009 तक कालेज ऑफ डेंटल साइंस,  
देवानगिरी, कर्नाटक से एम.डी.एस. डिग्री प्राप्त करने के लिए 36 माह  
पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं  
गिनी जाएगी)

अबीर सरकार (डीएस-12384एम), 03 सितम्बर 2010

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 03 मार्च 2010 से दी जाती  
है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता  
भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

महेश चन्द्र

मेजर जनरल

एडीजीडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 455, दिनांक 13 सितम्बर 2011—राष्ट्रपति, सहर्ष यथा संशोधित  
थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

अरुणचंद आर (एम आर-09196ए), ए एम सी, 18 मार्च 2011

ईशान अग्रवाल (एम आर-09195एक्स), ए एम सी, 18 मार्च 2011

कामपार्श ठाकुर (एम आर-09191एफ), ए एम सी, 18 मार्च 2011  
पीयूष खाटकर (एम आर-09190वाई), ए एम सी, 18 मार्च 2011  
गौरव पठानिया (एम आर-09181एक्स), ए एम सी, 18 मार्च 2011

यश पांडे  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

एकीकृत रक्षा मुख्यालय (थल सेना)  
सैन्य अभियन्ता सेवायें

सं. 456, दिनांक 13 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाये गये पदों पर सामने लिखी गई तिथियों से सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

एम.ई.एस. सं., नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री), पद और तिथि

186117, राधेश्याम सोनी, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 26 अप्रैल 2011 (पूर्वाह्न)

314273, विजय कुमार शर्मा, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

509142, निर्मल सिंह, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 10 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

109697, एलिसुआ दानीयेल, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

109700, गीता महेन्द्रन, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

239127, मोहन चन्द्र रौमुरीया, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

281008, अनिल कुमार दले, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

238975, सुजला राम बडो, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 14 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

507045, शशी कुमार रैणा, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 21 मार्च 2011 (पूर्वाह्न)

180807, के. राजेश, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 12 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

507375, के. सोमन, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

471293, बीर पाल सिंह, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 12 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

187883, अनिला देवी एम.के., ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 11 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

314223, बस्ती राम, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 01 फरवरी 2010 (अपराह्न)

600213, अंकुश डी. पांडरे, ए.ई. (क्यू.एस.एण्ड.सी.), 14 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

144368, वी. के. मोहनन, ए.ई.(क्यू.एस.एण्ड.सी.), 12 फरवरी 2011 (पूर्वाह्न)

363153, मदन लाल, ए.ई.(ई/एम), 30 मई 2011 (पूर्वाह्न)

600387, शिरीष काशिनाथ गिजरे, ए.ई.(ई/एम), 31 मई 2011 (पूर्वाह्न)

170900, दिलीप विश्वनाथन दिवटे, ए.ई.(ई/एम), 30 मई 2011 (पूर्वाह्न)

123500, बचनु मोलाइराम, ए.ई.(ई/एम), 27 जुलाई 2009 (पूर्वाह्न)

134284, आर. मनीवनं, ए.ई.(ई/एम), 30 मई 2009 (पूर्वाह्न)

266015, मेरी बेनजामिन लामा, प्रशासनिक अधिकारी-I, 11 मार्च 2011 (पूर्वाह्न)

186062, सदगुन जे. मकवान, तकनीकी अधिकारी, 09 सितम्बर 2009 (पूर्वाह्न)

164490, व्यंकट राव मधुकर विभुते, तकनीकी अधिकारी, 23 अक्टूबर 2007 (पूर्वाह्न)

159748, भागचंद यशवंत नांगरे, तकनीकी अधिकारी, 01 मई 2008 (पूर्वाह्न)

189314, जल्लिलपल्लिल राजशेखर, बी.एस.ओ., 31 जनवरी 2011 (पूर्वाह्न)

312410, जसबीर सिंह, प्रशासनिक अधिकारी-II, 16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाह्न)

123828, शैलेन्द्र मधुकर गायकवाड़, प्रशासनिक अधिकारी-II, 02 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह्न)

364329, राम किशन, प्रशासनिक अधिकारी-II, 16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाह्न)

300461, शशी लता सिंह, सहायक वास्तुविद-II, 31 दिसम्बर 2010 (पूर्वाह्न)

अलका जोशी  
अवर सचिव

एकीकृत मुख्यालय-रक्षा मंत्रालय (नौसेना)  
प्रशासन निदेशालय (सिव)

सं. 457, दिनांक 14 सितम्बर 2011--सक्षम अधिकारी द्वारा सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 2001 के नियम 7(8) के अन्तर्गत उनके नामों के आगे उल्लेखित समयावधि तक या नियमित पदधारक उपलब्ध होने तक या अधिकारी के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो, उस समय तक अनुभाग अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) वेतनबंध-2

(रु. 9,300--34,800/-) एवं ग्रेड पे रु. 4,800/- के रूप में नियुक्ति बढ़ाई जाती है:--

श्री ए के पंवर, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री अमरजीत सलहोत्रा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री अमृत लाल, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री अशोक शारदा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री बलवान सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री बंसी लाल, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री बी पी सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री बिकाश कृष्णा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री चांद सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री चांदी राम, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री डी पी खुराना, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री देबाशीष प्रधान, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री डी के प्रसाद, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री दिनेश चन्द्र, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री घनश्याम सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री गुरबचन सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती गुरमीत मुखा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री हेत प्रकाश, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती इन्द्राणी गुप्ता, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री आई एस ब्रामनीया, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री जे सी बिस्ट, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री जे पी मीणा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री के एल मामचंद, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री कैलाश चंद, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती कैलाश रानी, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री एम सी वशिष्ठ, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री एम नन्दन, 01 जनवरी 2011 से 31 मई 2011  
 श्री महेश कुमार, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 कु मन्जुश्री दास, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री नरेन्द्र सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री नीरज रंजन, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री ओम वीर, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री प्रेम कुमार, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री राज पाल सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011

श्री राज सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री रूप चंद, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री एस के बर्मन, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री सतवीर सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री सतविन्दर सिंह, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री सौम्यजीत मंडल, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती सावित्री पार्चा, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती शशी अलघ, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती शैलेन्द्र कपूर, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती स्नेह रानी सक्सेना, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री सुभाष बिश्वास, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती सुदेश कपूर, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती सुनीता मोंगीया, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्रीमती श्यामला रमन, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री टी एस नेगी, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री उदय कापट, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री वी रामू, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री विनय कुमार, 01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011  
 श्री विनोद कुमार, 01 जनवरी 2011 से 28 फरवरी 2011

ये नियुक्ति पूर्णतया कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर की गई है तथा प्रशासकीय कारणों से बिना सूचना अथवा नियमित पदधारक के उपलब्ध होने पर रद्द की जा सकती है।

ए के लारोइया  
 उप मु प्र अ (ए)

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 458, दिनांक 14 सितम्बर 2011--निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 15,600--39,100/- + (पे बैंड-3) 5,400/- ग्रेड पे रुपये के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है :--

पिन सं., नाम, स्थापना/प्रयोगशाला और नियुक्ति की तिथि

2008एबी1652, श्री आर रामालिंगम, ए डी ई, बेंगलुरु, 18 सितम्बर 2008

2010एबी1057, श्री श्रीधर दासरी, ए डी ई, बेंगलुरु, 19 मई 2010

2010एबी1170, श्री करण रौत, ए आर डी ई, पुणे, 19 मई 2010

2008एबी1049, श्री सुरेश एम, ए आर डी ई, पुणे, 21 मई 2008

2010एबी1136, श्री राज ए वाई, ए एस एल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2010एबी1059, श्री यशवंत ए देशमुख, ए एस एल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2009एबी1559, श्री भार्गव बोरा, अनुराग, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2008एबी1117, श्री नितिन कुमार, केब्स, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2009एबी1577, श्री अतिम मेंदा, केब्स, बेंगलुरु, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1342, श्री एस सेल्वाकुमार, केब्स, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2009एबी1138, श्री राजेश कुमार लखवाल, केब्स, बेंगलुरु, 03 जून 2009

2008एबी1154, श्री संजय कुमार संजय, सीमिलेक, बेंगलुरु, 21 मई 2008

2009एबी1124, श्री वसंत राज एम, सी वी आर डी ई, चैन्नई, 03 जून 2009

2008एबी1198, श्री रवि कुमार दारा, सी वी आर डी ई, चैन्नई, 21 मई 2008

2010एबी1137, श्री के दिलीप रेड्डी, सी वी आर डी ई, चैन्नई, 19 मई 2010

2009एबी1082, श्री डी राममूर्ति, सी वी आर डी ई, चैन्नई, 31 जुलाई 2009

2010एबी1247, सुश्री श्रुति रावल, डील, देहरादून, 08 नवम्बर 2010

2010एबी1248, श्री नितिन नगीन, डील, देहरादून, 23 दिसम्बर 2010

2009एबी1160, श्री अक्षय जैन, डील, देहरादून, 03 जून 2009

2009एबी1120, श्री विकास कुमार, डेबेल, बेंगलुरु, 04 जून 2009

2009एबी1046, सुश्री ऐशा चक्रवर्ती, डी आई पी आर, दिल्ली, 03 जून 2009

2010एबी1119, श्री सौम्यादीप विश्वास, डी एल आर एल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2011एबी1003, श्री अभिनव दुबे, डी एल आर एल, हैदराबाद, 09 फरवरी 2011

2008एबी1323, श्री रतन गुजर टोपो, डी एल आर एल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1330, श्रीमती अंजु निर्वान, डी एम एस आर डी ई, कानपुर, 21 मई 2008

2008एबी1339, श्री सी रामाकृष्णा, डी आर डी ई, ग्वालियर, 21 मई 2008

2009एबी1130, श्रीमती मालती वी, डी आर डी एल, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1546, श्री वसीम शफी, डी आर डी एल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2008एबी1361, श्री बी वेंकट रामा एस, डी आर डी एल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1379, सुश्री मीनाक्षी पाटिल, डी आर डी एल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1606, श्री अंकित राज, डी आर डी एल, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1526, श्री के श्रीनिवासन, जी टी आर ई, बेंगलुरु, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1611, सुश्री पल्लवी वार्ष्णेय, जी टी आर ई, बेंगलुरु, 01 दिसम्बर 2009

2009एबी1311, श्री के महेश सोपान, एच ई एम आर एल, पुणे, 03 जून 2009

2008एबी1130, सुश्री एस संगीता दास, आई टी आर, बालासौर, 21 मई 2008

2008एबी1133, सुश्री ममता मीणा, लेस्टेक, दिल्ली, 21 मई 2008

2008एबी1213, श्री ए हुसैन एन, एन पी ओ एल, कोच्चि, 21 मई 2008

2008एबी1602, श्री अमित कुमार, एन एम आर एल, अंबरनाथ, 03 दिसम्बर 2008

2008एबी1234, श्री संजय कुमार सवान, एन एस टी एल, विशाखापत्तनम, 21 मई 2008

2009एबी1115, श्री किरण कुमार आर वी, एन एस टी एल, विशाखापत्तनम, 03 जून 2009

2009एबी1089, श्री अंसर अहमद मन्सूर, आर सी आई, हैदराबाद, 03 जून 2009

2008एबी1282, श्री मदन लाल कसोटिया, आर सी आई, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1583, श्री कुमार अश्लेष, आर सी आई, हैदराबाद, 01 दिसम्बर 2009

2008एबी1563, श्री कुमुद कुमार शर्मा, आर एंड डी ई (ई), पुणे, 03 दिसम्बर 2008

2010एबी1162, श्री नितिन कुमार अशोक पोल, आर एंड डी ई (ई), पुणे, 19 मई 2010

2009एबी1326, श्री बी विनायक गौतम, आर एंड डी ई (ई), पुणे, 03 जून 2009

2009एबी1325, श्री अंकित वार्ष्णेय, आर एंड डी ई (ई), पुणे, 03 जून 2009

2009एबी1362, श्री संजीव कुमार, एस एस पी एल, दिल्ली, 03 जून 2009

2009एबी1688, श्री नितिश राज, डब्ल्यू ई एस ई ई, दिल्ली, 01 दिसम्बर 2009

नरसिंह साहू  
संयुक्त निदेशक

स्थायी आर्मी  
मिलिट्री नर्सिंग सेवा  
स्थायी कमीशन

सं. 459, दिनांक 14 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी ए एफ एम एस/एम एन एस 2586/डी (मेडीकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 01 मार्च 2010 से सेना में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

ले. परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

- ले. आहुति (एन आर-22205पी), 04 मई 1985
- ले. गुंजा कुमारी (एन आर-22206एक्स), 14 सितंबर 1983
- ले. चन्द्रकला बिष्ट (एन आर-22207ए), 24 फरवरी 1986
- ले. ज्योति संचन (एन आर-22208एच), 30 सितंबर 1985
- ले. वी विद्या (एन आर-22209एल), 21 दिसंबर 1987
- ले. ममता देवी (एन आर-22210ए), 04 मई 1987
- ले. सीबा बेबी (एन आर-22211एच), 28 अप्रैल 1987
- ले. रविन्दर कौर (एन आर-22212एल), 21 अक्टूबर 1985
- ले. साइखोम उषा रानी देवी (एन आर-22213एन), 10 मार्च 1988
- ले. चेष्टा रानी (एन आर-22214डब्ल्यू), 14 जनवरी 1988
- ले. जागृति बलूनी (एन आर-22215वाई), 11 फरवरी 1988
- ले. सुनीता बिष्ट (एन आर-22216एफ), 26 मार्च 1983
- ले. रंजना भण्डारी (एन आर-22217के), 03 मई 1985
- ले. हेमा भट्ट (एन आर-22218एम), 02 सितम्बर 1985
- ले. धन्या मोहनदास (एन आर-22219पी), 05 अप्रैल 1986
- ले. संजुलता (एन आर-22220के), 21 फरवरी 1984
- ले. हरपुनीत कौर (एन आर-22221एम), 19 दिसम्बर 1987
- ले. संगीता सिंह (एन आर-22222पी), 17 मार्च 1986
- ले. डैसी डी पी (एन आर-22223एक्स), 20 फरवरी 1985

- ले. सुनीता नौडियाल (एन आर-22224ए), 21 जून 1982
- ले. चिंगनैजो (एन आर-22225एच), 29 मई 1983
- ले. साधना तिवारी (एन आर-22226एल), 11 नवंबर 1985
- ले. स्वाति ठाकुर (एन आर-22227एन), 23 सितंबर 1987
- ले. अनामिका मिश्रा (एन आर-22228डब्ल्यू), 06 अप्रैल 1988
- ले. भावना ठाकुर (एन आर-22229वाई), 08 अप्रैल 1987
- ले. निम्मी ससिधरन (एन आर-22230एन), 16 सितंबर 1987
- ले. रचना पाठक (एन आर-22231डब्ल्यू), 05 नवंबर 1985
- ले. अनु चौधरी (एन आर-22232वाई), 22 अक्टूबर 1983
- ले. शालिनी सुकुमारन (एन आर-22233एफ), 07 जुलाई 1987
- ले. नीतिका राना (एन आर-22234के), 22 जून 1988
- ले. मंजुश्री कुमारी (एन आर-22235एम), 26 जून 1987
- ले. स्मृति गुरुंग (एन आर-22236पी), 01 जुलाई 1983
- ले. कोमल राणा (एन आर-22237एक्स), 01 जनवरी 1985
- ले. ममता वर्मा (एन आर-22238ए), 04 जून 1986
- ले. ज्योति रावैर (एन आर-22239एच), 05 जनवरी 1988
- ले. सेबी एस बशीर (एन आर-22240एक्स), 28 दिसम्बर 1987
- ले. जीजा जॉन (एन आर-22241ए), 23 अप्रैल 1988
- ले. सुमन पाण्डे (एन आर-22242एच), 05 जुलाई 1986
- ले. अमृता रॉय (एन आर-22243एल), 09 अप्रैल 1986
- ले. अंकिता तिवारी (एन आर-22244एन), 23 सितंबर 1986
- ले. डॉली गुप्ता (एन आर-22245डब्ल्यू), 05 दिसंबर 1988

राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मेडीकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 14 सितम्बर 2009 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 14 सितम्बर 2008) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अस्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

- ले. क्रिस्टीना ईलाजर (एनएस-21971वाई), 14 फरवरी 1977
- ले. शाइनी एस एल (एनएस-21972एफ), 16 जून 1982
- ले. कविता जी (एनएस-21973के), 17 नवम्बर 1982
- ले. मंजुला रानी एस (एनएस-21974एम), 01 फरवरी 1977

ले सरिता सागर (एनएस-21975पी), 01 मार्च 1981  
 ले ज्योति रानी हूड्डा (एनएस-21976एक्स), 06 फरवरी 1986  
 ले चेतन पाल (एनएस-21977ए), 26 अक्टूबर 1986  
 ले अस्वथी बी (एनएस-21978एच), 20 मई 1987  
 ले अनिता ए (एनएस-21979एल), 18 अगस्त 1984  
 ले विजी टी (एनएस-21980ए), 21 जून 1986  
 ले नवजीत कौर (एनएस-21981एच), 23 जून 1987  
 ले यास्मीन मलिक (एनएस-21982एल), 28 फरवरी 1986  
 ले ज्योति (एनएस-21983एन), 16 मई 1987  
 ले जोनाली देवी (एनएस-21984डब्ल्यू), 31 अगस्त 1983  
 ले एम ललिता (एनएस-21985वाई), 09 फरवरी 1984  
 ले वानी एस (एनएस-21986एफ), 17 जनवरी 1985  
 ले प्रिया (एनएस-21987के), 04 नवम्बर 1987  
 ले वी मोहना (एनएस-21988एम), 20 मई 1984  
 ले ए रम्याप्रिया दर्शिनी (एनएस-21989पी), 14 जून 1985  
 ले शीना एम थॉमस (एनएस-21990के), 20 जनवरी 1984  
 ले अन्जु (एनएस-21991एम), 07 जून 1984  
 ले अनु आर ससिधरन (एनएस-21992पी), 27 मई 1986  
 ले बोडु ज्योत्सना देवी (एनएस-21993एक्स), 12 जून 1986  
 ले रूचि शर्मा (एनएस-21994ए), 06 अक्टूबर 1987  
 ले दारा रूथान्जल सिनई (एनएस-21995एच), 19 अगस्त 1986  
 ले जी नागमनी (एनएस-21996एल), 22 मई 1984  
 ले टी श्रीविद्यालक्ष्मी (एनएस-21997एन), 20 जून 1979  
 ले गायत्री देवी (एनएस-21998डब्ल्यू), 27 फरवरी 1982  
 ले दसारी नवनिता (एनएस-21999वाई), 09 जुलाई 1986  
 ले सुरेखा सोनी (एनएस-22000ए), 28 जनवरी 1986  
 ले कोटलनी एन कौशल्यादेवी (एनएस-22001एफ), 13 मार्च 1986  
 ले कोमधीस्वामी जी (एनएस-22002एल), 12 जनवरी 1978  
 ले मानसी गोयल (एनएस-22003एन), 13 मार्च 1987  
 ले श्रीदेवी काकरला (एनएस-22004डब्ल्यू), 20 जून 1979  
 ले वडाला विजया (एनएस-22005वाई), 04 दिसम्बर 1979  
 ले ज्योति आर (एनएस-22005एफ), 30 मई 1982  
 ले एन बानुप्रिया (एनएस-22007के), 28 फरवरी 1986

ले वनेजा केसवन (एनएस-22008एम), 20 दिसम्बर 1980  
 ले कुमदनि कुल्लु (एनएस-22009पी), 06 फरवरी 1982  
 ले वनिता सी (एनएस-22010के), 24 जून 1981  
 ले एस अक्सा क्लेमन्सिया (एनएस-22011एम), 31 अगस्त 1982  
 ले नीलम बिष्ट (एनएस-22012पी), 03 जून 1985  
 ले लेखा सी (एनएस-22013एक्स), 20 मार्च 1986  
 ले रंजिता एन एस (एनएस-22014ए), 06 जनवरी 1985  
 ले राजी जॉर्ज (एनएस-22015एच), 26 सितम्बर 1983  
 ले पूर्णिमा बी (एनएस-22016एल), 05 जून 1984  
 ले सी कुमुदा (एनएस-22017एन), 16 जून 1984  
 ले एम गीता रानी (एनएस-22018डब्ल्यू), 11 अगस्त 1984  
 ले स्मिता गुप्ता (एनएस-22019वाई), 23 सितम्बर 1985  
 ले उर्वशी शर्मा (एनएस-22020एन), 20 जनवरी 1985  
 ले विजय चंचना एस (एनएस-22021डब्ल्यू), 31 जुलाई 1985  
 ले अन्जु मील (एनएस-22022वाई), 01 अगस्त 1984  
 ले अनुरीता (एनएस-22023एफ), 08 जून 1982  
 ले राजेश कुमारी (एनएस-22024के), 30 जुलाई 1986  
 ले सूसी पी (एनएस-22025एम), 31 मई 1985  
 ले नवजीत कौर (एनएस-22026पी), 02 जून 1985  
 ले मन्जरी कुमारी (एनएस-22027एक्स), 26 नवम्बर 1985  
 ले जे एस ग्लेडसिन जेमी (एनएस-22028ए), 10 अप्रैल 1986  
 ले पद्मजा बन्दारू (एनएस-22029एच), 04 जून 1986  
 ले एन्सी जोस (एनएस-22030एक्स), 07 मार्च 1986  
 ले एस सुमति (एनएस-22031ए), 02 अप्रैल 1984  
 ले कोनाकोण्डला प्रियदर्शिनी (एनएस-22032एच), 10 जुलाई 1984  
 ले रेवती के (एनएस-22033एल), 01 अगस्त 1985  
 ले जी अहिलाम्बिका (एनएस-22034एन), 12 मई 1986  
 ले मैलोडी लालेमगवी (एनएस-22035डब्ल्यू), 31 अगस्त 1984  
 ले रेखा ए एस (एनएस-22036वाई), 10 जुलाई 1986  
 ले किरन मलिक (एनएस-22037एफ), 22 फरवरी 1987  
 ले दिव्याश्री पी एस (एनएस-22038के), 20 अगस्त 1985  
 ले के सुब्बुलक्ष्मी (एनएस-22039एम), 16 अप्रैल 1983  
 ले पल्ला एस पी देवी (एनएस-22040एफ), 01 जनवरी 1983

ले एस चित्रा (एनएस-22041के), 20 जून 1986  
 ले प्रसिता नायर (एनएस-22042एम), 12 मार्च 1983  
 ले थिंगोम बिद्या देवी (एनएस-22043पी), 03 फरवरी 1984  
 ले अमृता छत्तर (एनएस-22044एक्स), 21 मार्च 1981  
 ले रेनु राठौर (एनएस-22045ए), 17 फरवरी 1986  
 ले सुगुनम्मा अप्पा (एनएस-22046एच), 15 मई 1986  
 ले डी एच एन्जला (एनएस-22047एल), 02 जुलाई 1983  
 ले दिव्या एस कुरूप (एनएस-22048एन), 25 मई 1986  
 ले स्वीटी ल्यूक (एनएस-22049डब्ल्यू), 07 नवम्बर 1986  
 ले नेहा कुमारी सेठी (एनएस-22050एल), 03 मार्च 1987  
 ले मैरी एन्जला ए ए (एनएस-22051एन), 28 अप्रैल 1982  
 ले राज्यलक्ष्मी काकुमनी (एनएस-22052डब्ल्यू), 15 मार्च 1986  
 ले पी बिनाक्का (एनएस-22053वाई), 08 फरवरी 1986  
 ले राजेश्वरी कारुमान्ची (एनएस-22054एफ), 20 मई 1978  
 ले आर राम्या (एनएस-22055के), 24 जुलाई 1986  
 ले दलजीत कौर (एनएस-22056एम), 18 फरवरी 1985  
 ले लिजी चेरियन (एनएस-22057पी), 27 नवम्बर 1985  
 ले रीतु मोनी डेका (एनएस-22058एक्स), 01 जनवरी 1981  
 ले स्वर्णा कुमारी ओगीरला (एनएस-22059ए), 15 जून 1984  
 ले टी ग्रैसी अबिगेल (एनएस-22060पी), 08 अगस्त 1984  
 ले प्रियंका प्रियदर्शिनी पलता (एनएस-22061एक्स), 26 जनवरी 1986  
 ले ए सुमति (एनएस-22062ए), 07 अप्रैल 1982  
 ले यंगखोम आनंदी चानू (एनएस-22063एच), 01 मार्च 1983  
 ले डी रूथविनय शीला (एनएस-22064एल), 09 फरवरी 1985  
 ले वायखोम रेनूता देवी (एनएस-22065एन), 01 मार्च 1985  
 ले फरहा अंजुम (एनएस-22066डब्ल्यू), 10 सितम्बर 1985  
 ले अलका (एनएस-22067वाई), 05 अक्टूबर 1986  
 राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएएफएमएस/एमएनएस/2586/डी (मेडीकल) दिनांक 17 जून 1988, जोकि समय-समय पर संशोधित

किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत अल्पविधि आयोग मिलिट्री नर्सिंग सेवा में दिनांक 01 मार्च 2010 से कमीशन प्रदान करते हैं :--

#### ले परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि  
 ले सुरूषा देव (एनएस-22246वाई), 31 अगस्त 1986  
 ले मोनिषा नायर (एनएस-22247एफ), 14 अक्टूबर 1987  
 ले प्रियंका राय (एनएस-22248के), 03 मई 1988  
 ले नाजनी बानो (एनएस-22249एम), 16 अप्रैल 1988  
 ले निशा शर्मा (एनएस-22250एफ), 25 जुलाई 1988  
 ले देवी वीपी (एनएस-22251के), 19 मई 1987  
 ले कनका कान्ति शिरीशा वाई (एनएस-22252एम), 20 अगस्त 1987  
 ले अनुपमा कुमारी (एनएस-22253पी), 05 फरवरी 1987  
 ले प्रीनु पॉलसन (एनएस-22254एक्स), 19 फरवरी 1988  
 ले एल रिगयाओला (एनएस-22255ए), 25 अक्टूबर 1986  
 ले मंजु बाला (एनएस-22256एच), 16 जून 1988  
 ले मनीषा कृष्णा नंदन (एनएस-22257एल), 03 मार्च 1988  
 ले शालिनी कुशवाहा (एनएस-22258एन), 05 फरवरी 1985  
 ले आरती प्रकाश (एनएस-22259डब्ल्यू), 17 मार्च 1985  
 ले उर्मिला भारती (एनएस-22260एल), 30 जुलाई 1986  
 ले आशा रानी शर्मा (एनएस-22261एन), 28 जनवरी 1986  
 ले नेहा सचन (एनएस-22262डब्ल्यू), 22 अप्रैल 1988  
 ले दीपिका पात्याल (एनएस-22263वाई), 21 अक्टूबर 1987  
 ले नेहा वर्मा (एनएस-22264एफ), 14 मई 1987  
 ले नुपुर शर्मा (एनएस-22265के), 03 अक्टूबर 1987  
 ले राज संजीवनी (एनएस-22266एम), 09 सितम्बर 1985  
 ले पुष्पिंदरजीत कौर (एनएस-22267पी), 01 सितम्बर 1986  
 ले रोबिना नसरानी (एनएस-22268एक्स), 10 जुलाई 1986  
 ले अनुराधा (एनएस-22269ए), 31 मार्च 1985  
 ले एच प्रियदर्शिनी देवी (एनएस-22270पी), 22 अक्टूबर 1987  
 ले हेमा बिष्ट (एनएस-22271एक्स), 15 दिसम्बर 1981  
 ले निधि शर्मा (एनएस-22272ए), 07 जुलाई 1987  
 ले नियति उत्तम गौर (एनएस-22273एच), 20 फरवरी 1987

राष्ट्रपति सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डीजीएफएमएस/एमएनएस 2586/डी (मैडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जोकि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 15 जुलाई 2009 (बीएससी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 15 जुलाई 2008) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अस्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :--

#### ले परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या और जन्म तिथि

ले पूनम गुप्ता (एनएस-21882ए), 02 जनवरी 1986  
 ले श्वेता पी एच (एनएस-21883एच), 07 मार्च 1987  
 ले लक्ष्मी प्रिया एस (एनएस-21884एल), 12 फरवरी 1985  
 ले सुमति सी (एनएस-21885एन), 28 सितम्बर 1984  
 ले वी विजयलक्ष्मी (एनएस-21886डब्ल्यू), 30 नवम्बर 1984  
 ले सी डी सुमति (एनएस-21887वाई), 06 मार्च 1984  
 ले राजश्री बहरा (एनएस-21888एफ), 01 सितम्बर 1984  
 ले बीना के बाबू (एनएस-21889के), 10 अगस्त 1986  
 ले देवी सी (एनएस-21890वाई), 14 जून 1985  
 ले थोकचम खिलोता देवी (एनएस-21891एफ), 01 मार्च 1983  
 ले जय देवी (एनएस-21892के), 18 जनवरी 1985  
 ले जी करूनअम्बिकाई (एनएस-21893एम), 05 अगस्त 1986  
 ले प्रिया डी (एनएस-21894पी), 10 मार्च 1986  
 ले वी सर्वणा इस्वरी (एनएस-21895एक्स), 22 मई 1983  
 ले प्रियका (एनएस-21896ए), 03 मार्च 1987  
 ले पूजा शर्मा (एनएस-21897एच), 15 सितम्बर 1986  
 ले देवी श्री टी एम (एनएस-21898एल), 22 जून 1985  
 ले प्रियंका मेहता (एनएस-21899एन), 31 अगस्त 1982  
 ले शालू नायर (एनएस-21900एक्स), 06 जून 1986  
 ले निथा सूसन मैथ्यू (एनएस-21901ए), 16 अप्रैल 1984  
 ले मैरी सोबिया सुगन्धी ए (एनएस-21902एच), 30 अप्रैल 1983  
 ले कीर्तिका एस (एनएस-21903एल), 19 अगस्त 1986  
 ले ममता दास (एनएस-21904एन), 04 सितम्बर 1978  
 ले सपना सोनार (एनएस-21905डब्ल्यू), 18 जनवरी 1983  
 ले अफजलुनिसा (एनएस-21906वाई), 12 सितम्बर 1982  
 ले जबाकला के एस (एनएस-21907एफ), 27 जुलाई 1985  
 ले जबाकला के एस (एनएस-21907एफ), 27 जुलाई 1985

ले अरूण सी (एनएस-21908के), 16 मई 1986

ले एन्जलिन डिसूजा (एनएस-21909एम), 22 मार्च 1987

ले मुनीश यादव (एनएस-21910एफ), 26 जून 1987

ले प्रवीणा पुल्लरू (एनएस-21911के), 28 नवम्बर 1983

ले रेवती के (एनएस-21912एम), 27 मई 1985

ले ए सुभाषिनी (एनएस-21913पी), 11 फरवरी 1986

ले बोनिता गिंगोमबम (एनएस-21914एक्स), 09 फरवरी 1984

ले अधिरा दिनेश (एनएस-21915ए), 16 सितम्बर 1986

ले हेमलता (एनएस-21916एच), 08 जनवरी 1985

ले श्रीदेवी बालोबल (एनएस-21917एल), 03 जुलाई 1985

ले कीर्ति रानी (एनएस-21918एन), 17 मई 1987

ले आर अमुना इवानजेलिन (एनएस-21919डब्ल्यू), 25 अगस्त 1986

ले जयश्री टी (एनएस-21920एल), 07 अगस्त 1986

ले सबेश्वरी पी एल (एनएस-21921एन), 02 जून 1986

ले रजनी कुमारी (एनएस-21922डब्ल्यू), 15 फरवरी 1985

ले सुशील धल (एनएस-21923वाई), 17 जून 1987

ले अनिला मैथ्यू (एनएस-21924एफ), 12 अगस्त 1983

ले पूनम (एनएस-21925के), 22 अक्टूबर 1986

ले कमला जोशी (एनएस-21926एम), 21 नवम्बर 1986

ले फ्रांसिस मैरी विमला एलक्स (एनएस-21927पी), 29 मई 1987

ले राजेश्वरी जी (एनएस-21928एक्स), 02 मार्च 1983

ले आनंदी राजालिंगम (एनएस-21929ए), 21 मई 1985

ले दीपा एन (एनएस-21930पी), 17 जून 1986

ले वी आर रश्मि (एनएस-21931एक्स), 11 मई 1985

ले मन्जु मन्मदन (एनएस-21932ए), 14 मई 1984

ले अनिशिया अगस्ती (एनएस-21933एच), 06 मई 1986

ले पेन्डरकर जयोत्सना युवराज (एनएस-21934एल), 02 जनवरी 1980

ले बी जयलक्ष्मी (एनएस-21935एन), 22 जुलाई 1986

ले बी रजिता (एनएस-21936डब्ल्यू), 27 अगस्त 1986

ले संगीता वी (एनएस-21937वाई), 15 सितम्बर 1983

ले सुमनलता (एनएस-21938एफ), 23 जनवरी 1986

ले मोरंगथम बीना देवी (एनएस-21939के), 01 जनवरी 1985

ले के संगीता (एनएस-21940वाई), 02 जून 1984

ले प्रीति गिल (एनएस-21941एफ), 01 जून 1980



ले लीलावती एम (एनएस-21942के), 08 जून 1985

ले अराधना विश्वनाथन (एनएस-21943एम), 01 मई 1984

जे के ग्रेवाल  
मेजर जनरल,  
अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

#### थल सेना विभाग

सं. 460, दिनांक 15 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारियों को एक वर्ष की परखवधि सफलतापूर्वक समाप्त होने पर सेना अनुदेश 15/79 के अन्तर्गत अल्पकालीन कमीशन में पक्का करते हैं:--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

अल्पकालीन कमीशन

स्थाईकरण

कैप्टन नानावति गौतम दिलीप (डीएस-12359एन), 24 अगस्त 2009

कैप्टन दिव्या (डीएस-12375एल), 16 अप्रैल 2010

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल, एडीजीडीएस

#### थल सेना विभाग

सं. 461, दिनांक 15 सितम्बर 2011--थल सेना अनुदेश 37/38 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:--

#### नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

मेजर जनरल से ले जनरल के पद पर

एस मुरली मोहन (डीआर-10295पी), 23 मार्च 2011 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता दिनांक 12.03.2011 से दी जाती है, जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)

महेश चन्द्र  
मेजर जनरल, एडीजीडीएस

#### स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 462, दिनांक 15 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

#### कर्नल से ब्रिगेडियर

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तारीख

ब्रिगे एस नैनान (एनआर-16173एफ), 28 जनवरी 2011

ब्रिगे जे ए फर्नानडिज (एनआर-16352एफ), 28 जनवरी 2011

ले कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

कर्नल वल्सला एल (एनआर-17121एक्स), 01 नवम्बर 2010

ले कर्नल (टीएस) ले कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल एस जी एलियम्मा (एनआर-17690एल), 01 दिसम्बर 2009

ले कर्नल सतियम्मा मैथ्यू (एनआर-17818एल), 01 अगस्त 2010

ले कर्नल जॉयमोल जॉन (एनआर-17839एफ), 01 अगस्त 2010

ले कर्नल लीनाकुमारी पीआर (एनआर-17854डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

ले कर्नल स्मिता देवरानी (एनआर-17858एम), 01 सितम्बर 2010

मेजर से ले कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं. तथा पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल सुजाता पी नायर (एनआर-19929एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल विमला वी आर (एनआर-19930डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अनिता मेहता (एनआर-19931वाई), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पूर्णिमा साहा (एनआर-19932एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पेरिके कर्नम्मा (एनआर-19933के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल मौसमी दत्ता (एनआर-19934एम), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अन्जु सिंह (एनआर-19935पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सिमी सोनी (एनआर-19936एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल एल लक्ष्मी सिंह (एनआर-19937ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल वीना वर्गिस (एनआर-19938एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल प्रमिला के पी (एनआर-19942एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल साई गीता के (एनआर-19944डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल आशा शर्मा (एनआर-19945वाई), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल गीता के (एनआर-19946एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल गुरमीत कौर (एनआर-19947के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल ज्योति दूबे (एनआर-19948एम), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अनुराधा (एनआर-19950के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सरिता शर्मा (एनआर-19951एम), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल मिनी थॉमस (एनआर-19952पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सुमित्रा राठी (एनआर-19955एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल नीलम मिश्रा (एनआर-19956एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शैली रस्तोगी (एनआर-19958डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सुधामोनी एल (एनआर-19960एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल स्नेहा सुभा पलतिंगाल (एनआर-19964के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल बिन्दू अरविन्दन (एनआर-19966पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल जी महालक्ष्मी (एनआर-19967एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल बबीता रानी (एनआर-19968ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल निधि बाला भट्ट (एनआर-19969एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पधारे अनिता थॉमस (एनआर-19973एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल ईपिना मुखोपाध्याय (एनआर-19974एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शीबा जोस (एनआर-19975डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल वन्दना (एनआर-19976वाई), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल राज कुमारी (एनआर-19977एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अरुणा गुरुंग (एनआर-19978के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल जी आनन्दी (एनआर-19980एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल एक्सिलिया लता (एनआर-19982एम), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल महुआ भट्टाचार्य (एनआर-19984एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शीला के आर (एनआर-19985ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल के एस प्रीता कुमारी (एनआर-19987एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल इन्द्रजीत कौर (एनआर-19988एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अनुपमा मंडल (एनआर-19991एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल चन्द्रकला आर डोडम्मा (एनआर-19992डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अजिता दत्ता चौधरी (एनआर-19993वाई), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल छवि कांजीलाल (एनआर-19994एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल रंजना एन्थोनी (एनआर-19995के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पुष्पावल्ली (एनआर-19996एम), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शंपा चटर्जी (एनआर-19997पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सरस्वती साहा (एनआर-19998एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल दलविन्द्र कौर (एनआर-20000एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल एस प्रमिला (एनआर-20003पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पुष्पा बिष्ट (एनआर-20004एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल कल्पना सोलोमन (एनआर-20006एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल निर्मला डेनियल (एनआर-20008एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सिंधिया रीता बी (एनआर-20010एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल दीपिका सुब्बा (एनआर-20011एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल छाया डे (एनआर-20012डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल राजविन्द्र कौर (एनआर-20014एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल ल्हाईखोतिंग हाओकिप (एनआर-20017पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल रूपा भौमिक (एनआर-20018एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल स्नेहलता शर्मा (एनआर-20020पी), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल नलिनी बी (एनआर-20021एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल के एम राजश्री (एनआर-20022ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सरस्वती चक्रवर्ती (एनआर-20023एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सुजा जॉर्ज (एनआर-20024एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल छाया दास (एनआर-20027वाई), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल रोसमैरी लेपचा (एनआर-20028एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल राठी टी के (एनआर-20029के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल ममता देवी (एनआर-20032के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल दलजीत कौर (एनआर-20035एक्स), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल बिपाशा मित्रा (एनआर-20036ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल स्निग्धा पाल (एनआर-20037एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शंपा रॉय (एनआर-20039एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल पल्लवी श्रीवास्तवा (एनआर-20042एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल रेनुका टोप्पो (एनआर-20043डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल शांती जोशी (एनआर-20072एल), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल कुसुम सिंह (एनआर-20073एन), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सिवली बैद्य मजूमदार (एनआर-20076एफ), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल मनीषा सुर्यवंशी (एनआर-20077के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल अरूणा के आर (एनआर-20078एम), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल तेजी श्रीधर (एनआर-20079पी), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मौसमी शर्मा (एनआर-20080एल), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल रेखा रानी गुप्ता (एनआर-20081एम), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल वी सुगिता (एनआर-20084ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मीनाक्षी केशव पाठक (एनआर-20085एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल रेजी श्रीधर एस (एनआर-20086एल), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल कार्तिकेयनी एस (एनआर-20092वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल चित्रलेखा (एनआर-20094के), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल बिबिना कुन्दु (एनआर-20095एम), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल बेशली एन नारायणन (एनआर-20098ए), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल मधुमालती (एनआर-20099एच), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल सुजा ओ पी (एनआर-20100एम), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल गीता आर (एनआर-20102वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल शीला दास आई (एनआर-20103ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल सुबेश आर (एनआर-20104एच), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल शेल्मी के जे (एनआर-20105एल), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल तापसी रे बर्मन (एनआर-20106एल), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल गीतु नैलवाल (एनआर-20107डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल रेनुका मेनन पी (एनआर-20108वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल अपर्णा चक्रवर्ती (एनआर-20109एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल सुजाता (एनआर-20110डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल बिष्णु प्रिया दत्ता (एनआर-20111वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल कुलविन्दर कौर (एनआर-20112एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मंजु वी चैटियार (एनआर-20117ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल थंकम्मा कोशी (एनआर-20118एच), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल सुसम्मा मोसेस (एनआर-20120ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल संजु धीमन (एनआर-20122एन), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मधुलता गौर (एनआर-20124डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल माधेशवरी एल (एनआर-20128एम), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मैरीकुट्टी जॉन (एनआर-20130के), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल यमुना देवी जी (एनआर-20134ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मनोरमा एल (एनआर-20135एच), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल सी जे बिश्वास (एनआर-20136एल), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल मिनी थॉमस (एनआर-20141डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल बीना आर राजप्पन (एनआर-20144के), 22 अक्टूबर 2010

ले कर्नल जयलक्ष्मी एच (एनआर-20146पी), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल अनिता नेपोलियन (एनआर-20148ए), 22 अक्टूबर 2010  
 ले कर्नल सोंगकित लेपचा (एनआर-20153एल), 22 अक्टूबर 2010

#### लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन

कैप्टन सिवा प्रिया (एनआर-21529एन), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन भावना भारद्वाज (एनआर-21530एच), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी बाजवा (एनआर-21531एल), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन श्रवणी रॉय (एनआर-21532एन), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन नीरज चौधरी (एनआर-21533डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन संदीप कुमारी (एनआर-21534वाई), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन विद्या पी (एनआर-21535एफ), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन विनीता सिंह (एनआर-21536के), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन कविता गुरुंग (एनआर-21537एम), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन पॉम्पा मुखर्जी (एनआर-21538पी), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन समिंदर मलिक (एनआर-21540एम), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन अरूणा अरविन्दन (एनआर-21541पी), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन बिजया साहा (एनआर-21542एक्स), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन वैजन्ती मटवाल (एनआर-21543ए), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन लिट्टु वर्गिस (एनआर-21544एच), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन निशी (एनआर-21545एल), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन आरजु वोहरा (एनआर-21546एन), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन तनु जदली (एनआर-21547डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन डैप्ली डी वानखर (एनआर-21548वाई), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन जागृति सुखपाल (एनआर-21549एफ), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन रिचा राई (एनआर-21550डब्ल्यू), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन टीना दाश (एनआर-21551वाई), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन माया नायर (एनआर-21552एफ), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन पूनम कश्यप (एनआर-21553के), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन कविता दास (एनआर-21554एम), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन एम प्रिया (एनआर-21555पी), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन अनिता नायर अशोकन (एनआर-21556एक्स), 21 अगस्त 2010

कैप्टन आशी सुल्ताना (एनआर-21634के), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन रेणुका दलाल (एनआर-21635एम), 21 अगस्त 2010  
 कैप्टन कल्पना कंवर (एनआर-21439एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन किरन सिंह (एनआर-21440एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अनुराधा गौर (एनआर-21441के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन आकांक्षा शर्मा (एनआर-21442एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अनु शर्मा (एनआर-21443पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन ललिता अलरिया (एनआर-21444एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन मौसमी प्रमानिक (एनआर-21445ए), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन जतिन्दर कौर (एनआर-21446एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रैमी माइकल (एनआर-21447एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन निशा फिलिप (एनआर-21448एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन काव्या बालू (एनआर-21449डब्ल्यू), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सुमिता जी (एनआर-21450एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन दीपा डबास (एनआर-21451एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन शालिनी (एनआर-21452एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन गीता कुमारी चहर (एनआर-21453वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन जीनू जॉन (एनआर-21454एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन पूजा दुकारे (एनआर-21455के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन समिन्दर कौर (एनआर-21456एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन आशू राणा (एनआर-21457पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अनिता सैमवाल (एनआर-21458एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सीजा कुरूप (एनआर-21459ए), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रजनी भट्ट (एनआर-21460पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन एस शीतल मुदलियार (एनआर-21461एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन मनीषा (एनआर-21462ए), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन लीना तमंग (एनआर-21463एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन नीतू कुमारी (एनआर-21464एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन शिखा के (एनआर-21465एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन मन्हाउ नियांग (एनआर-21466डब्ल्यू), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अरून्धति (एनआर-21467वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन मैरी जॉनसन के (एनआर-21468एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन प्रगति निगम (एनआर-21470वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन दिव्या पी (एनआर-21471एफ), 25 अगस्त 2010

कैप्टन राधिका पी बी (एनआर-21472के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन पूजा राय (एनआर-21473एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन पद्म रागिनी (एनआर-21474पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सतविन्दरजीत कौर (एनआर-21475एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रीना कुमारी (एनआर-21476ए), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन शिखा गुप्ता (एनआर-21478एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सोनिया त्रिपाठी (एनआर-21479एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन वन्दना कुमारी (एनआर-21480एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रीतु राय (एनआर-21482एन), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सीमा कापसे (एनआर-21483डब्ल्यू), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन जीशा बी (एनआर-21484वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन श्वेता शर्मा (एनआर-21485एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सूसी आनंद (एनआर-21486के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन कात्यानी (एनआर-21487एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन राखी (एनआर-21488पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रीतु डागर (एनआर-21489एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सोनिया परवीन (एनआर-21490एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन इन्दुलेखा के ए (एनआर-21492एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन कुन्नाथ जोस (एनआर-21494एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अर्पणा पिंकी (एनआर-21495एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन भारती देवी (एनआर-21498वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन पुष्पा कुमारी (एनआर-21499एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन निरूपमा सिरसवाल (एनआर-21500एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सीमा राजपूत (एनआर-21502डब्ल्यू), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन पामिल यादव (एनआर-21503वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सरिता सिंह (एनआर-21504एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन ज्योत्सना सिंह (एनआर-21506एम), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन रश्मि राणा (एनआर-21508एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन प्रियंका एस (एनआर-21510पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन धन्या बालाचन्द्रन (एनआर-21511एक्स), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन नीलिमा दे (एनआर-21512ए), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन शिप्रा सिंह (एनआर-21513एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अमिता मिश्रा (एनआर-21514एल), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन सुपर्णा सिंघा (एनआर-21515एन), 25 अगस्त 2010

कैप्टन मनिंदर कौर (एनआर-21516डब्ल्यू), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन कंचन (एनएस-21517वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन संगीता यादव (एनएस-21518एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन लुईस लिन्नेट थॉमस (एनएस-21519के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन नवजीत कौर (एनआर-21520वाई), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन प्रैट्टी जॉर्ज (एनआर-21521एफ), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन ग्रीष्मा वर्गिस (एनएस-21522के), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन अश्विनी (एनएस-21523एच), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी पारिक (एनएस-21524पी), 25 अगस्त 2010  
 कैप्टन किरन (एनआर-21557ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सोनी रावत (एनआर-21558एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपलता कुमारी (एनआर-21559एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शिल्पी मन्कोटिया (एनआर-21560ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन एन शोभना (एनआर-21561एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुमीता (एनआर-21562एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनिता राई (एनआर-21563एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन वी रजिता कुमारी (एनआर-21564डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन हरप्रीत कौर (एनआर-21565वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सोनिया राज (एनआर-21566एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी यादव (एनआर-21567के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन तृप्ति शर्मा (एनआर-21568एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मनीषा वर्मा (एनआर-21569पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुमम टी मैथ्यू (एनआर-21570के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन राधिका टी आर (एनआर-21571एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कल्पना रावत (एनआर-21573एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शोभा दूबे (एनआर-21574ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बबीता भारद्वाज (एनआर-21575एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बी उषाश्री (एनआर-21576एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सिमी बाबू (एनआर-21577एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन निर्मली चलिहा (एनआर-21578डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन धन्यामोल के डी (एनआर-21579वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अर्चना रावत (एनआर-21580एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन संध्या जी नायर (एनआर-21581डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रियदर्शिनी बी (एनआर-21582वाई), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन अनुपमा जायसवाल (एनआर-21583एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन राधा (एनआर-21584के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सरिता शर्मा (एनआर-21585एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन पन्सारे वैशाली शान्ताराम (एनआर-21586पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अन्जु चौहान (एनआर-21587एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मोनिट शर्मा (एनआर-21588ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन इन्दु जॉर्ज (एनआर-21589एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जी अश्वथी राघवन (एनआर-21590एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन के जे दिव्या (एनआर-21591ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन निधि श्रीवास्तव (एनआर-21592एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुमन गुप्ता (एनआर-21593एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रक्षा शर्मा (एनआर-21594एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कोन्डेती सुनीता सुन्दरी (एनआर-21595डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कविता जोशी (एनआर-21596वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शालिनी (एनआर-21597एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सिमरनजीत कौर (एनआर-21598के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनिता सिंह (एनआर-21599एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन तनुजा कुमारी (एनआर-21600डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन गौरी थापा (एनआर-21601वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुसना सी इसाक (एनआर-21602एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन पूजा उपाध्याय (एनएस-21603के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रेखा कुमारी (एनएस-21604एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रचना अग्रवाल (एनएस-21605पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शुभकामना थापा (एनएस-21606एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रेरणा शुक्ला (एनएस-21607ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लिजी जॉर्ज (एनएस-21608एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन निर्मला भाखुनी (एनएस-21609एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन पुष्पलता (एनएस-21610ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन एस सी सुरन्या (एनएस-21611एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दिव्या एस नायर (एनएस-21612एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन चित्रा बाबू (एनएस-21613एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अबि जोस (एनएस-21614डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुधा तमंग (एनएस-21615वाई), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन सुमन शेखावत (एनएस-21616एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रोनी के टी (एनएस-21617के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मोहिता सांबयाल (एनएस-21618एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन स्मिता साहू (एनएस-21619पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनुराधा क्षेत्री (एनएस-21620के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन चन्द्रकान्ता शर्मा (एनएस-21621एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मधुमिता दास (एनएस-21622पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जतिन्दर कौर (एनएस-21623एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपा के आर (एनएस-21624ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन संधिमित्रा चौहान (एनएस-21625एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनिता (एनएस-21626एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लता सुंदरियाल (एनएस-21627एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन देवी कृष्णा के आई (एनएस-21628डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सेरह मघाई (एनएस-21629वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बॉबिन जोसफ (एनएस-21630एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रियंका वी एम (एनएस-21631डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रूपम सिंह (एनएस-21632वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अन्जु एस वी (एनएस-21633एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नीलिमा खातून (एनएस-21638ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनु बाला (एनएस-21639एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन उगु लिबंग (एनएस-21640एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कलावती मीना (एनएस-21641ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नीतू राठौर (एनआर-21642एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन देवी प्रिया (एनआर-21643एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दिव्या शर्मा (एनआर-21644एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी झांगरा (एनआर-21645डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बिन्सी कुरियाकोस (एनआर-21646वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शालु चौहान (एनआर-21647एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बीना एस बाबू (एनआर-21648के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शशिकला (एनआर-21649एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नित्या आर (एनआर-21650एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रीता रानी सिंह (एनआर-21651के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मन्जु नारायण (एनआर-21652एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शीजा चाको (एनआर-21653पी), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन ज्योत्सना शुभ्रा (एनआर-21654एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सविता पी (एनआर-21655ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपिका चमोली (एनआर-21656एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नीतू जॉर्ज (एनआर-21657एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन चैतन्या एस के (एनआर-21658एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रतिमा कश्यप (एनआर-21659डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुषमा कुमारी (एनआर-21660एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सारन्या (एनआर-21661एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मनोरश्मि टी एम (एनआर-21662डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन के सुषमा अहीरवार (एनआर-21663वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रम्या पी (एनआर-21664एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन एन्जल रोस (एनआर-21665के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी एन (एनआर-21666एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अपर्णा सिन्हा (एनआर-21667पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन ज्योति पन्त (एनआर-21668एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन टीना जॉन (एनआर-21669ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कविता आर कुमार (एनआर-21670पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जे मर्लिन इमेक्यूलेट (एनआर-21671एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जयश्री नायर (एनआर-21672ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जीवंतिका पी (एनआर-21673एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रतिभा तिवारी (एनआर-21674एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रीना यादव (एनआर-21675एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सिवली डी संगमा (एनआर-21676डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रेहाना दास (एनएस-21677वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुषमा कुमारी (एनएस-21678एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शबाना पी पी (एनएस-21679के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रिचा रावत (एनएस-21680वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन पूजा गौतम (एनएस-21681एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अश्वथी चन्द्रन (एनएस-21682के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीना राजन (एनएस-21683एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनूपा देवी कैरी (एनएस-21684पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन विभा शर्मा (एनएस-21685एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मेघा रावत (एनएस-21686ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नमनीत कौर (एनएस-21687एच), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन कमलेश मलकानी (एनएस-21688एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन आर्य एस राजन (एनएस-21689एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रिकी सचन (एनएस-21690एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन संगीता के एम (एनएस-21691एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन स्वीटी कुमारी (एनएस-21692एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुचेता प्रसाद (एनएस-21693डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अमनिन्दर कौर (एनएस-21694वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी भण्डारी (एनएस-21695एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मेघा बिष्ट (एनएस-21696के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अमेघा सी वी (एनएस-21697एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन हांसी पाठक (एनएस-21698पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नबनिता मित्रा (एनएस-21699एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपिका (एनआर-21700एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नम्रता कृपलानी (एनआर-21701के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन पूनम सिंह (एनआर-21702एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जिशा जॉनसन (एनआर-21703पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जानकी भट्ट (एनआर-21704एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अनिता दास (एनआर-21705ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अर्जिता रतुड़ी (एनआर-21706एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीनाक्षी मोहल (एनआर-21707एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रियमवदा चौबे (एनआर-21708एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन तमन्ना (एनआर-21709डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लूसी अनिमा टर्की (एनआर-21710एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुनीता कुशवाहा (एनआर-21711एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रुचिका शर्मा (एनआर-21712डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मीना शर्मा (एनआर-21713वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सपना रियाल (एनआर-21714एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सौभाग्य के एम (एनआर-21715के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जीमोल जॉन (एनआर-21716एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन मौसमी दास (एनआर-21717पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सिन्धु पी के (एनआर-21718एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुष्मिता चक्रवर्ती (एनआर-21719ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जी सुन्दरी (एनएस-21720पी), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन ए ग्रेस ग्नाना मार्गेट (एनएस-21722ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कल्पना पाठक (एनएस-21723एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कीर्ति मान (एनएस-21724एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नीरजा करकेट (एनएस-21726डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सीमा जाखड़ (एनएस-21727वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन एस सरला (एनएस-21729के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन धेनमोजी जे (एनएस-21730वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन विग्नेश्वरी बी (एनएस-21731एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लक्ष्मी के एस (एनएस-21732के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रूमी नियोग सेकिया (एनएस-21733एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपशिखा खाडसे (एनएस-21734पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन एम मुप्पीदथियाम्मल (एनएस-21735एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुधा एस (एनएस-21736ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन शालू वर्मा (एनएस-21737एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन श्रीदेवी बिरादर (एनएस-21738एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन डी सोनी जेनिफर (एनएस-21739एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जयन्ती (एनएस-21740एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रिया एस (एनएस-21741एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लीना धामगये (एनएस-21742एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अरूणा बिरादर (एनएस-21743डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन विश्वा भारती (एनएस-21744वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जगदेश्वरी डी (एनएस-21745एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन निशा एस (एनएस-21746के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लावन्या के (एनएस-21747एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन के विद्या (एनएस-21748पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अर्जिता (एनआर-21749एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नवीना डबास (एनआर-21750एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अंजना कुमेरी (एनआर-21751पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन नुपुर सचदेवा (एनआर-21752एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन निशा सिंह (एनआर-21753ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन तनुश्री मित्रा (एनआर-21754एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बी रोशनी (एनआर-21755एल), 22 अक्टूबर 2010

कैप्टन अनु जकारिया (एनआर-21756एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन राधिका दास (एनआर-21757डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन श्वेता दहिया (एनआर-21758वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कृष्णा बिष्ट (एनआर-21759एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन कविता राजवार (एनआर-21760डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अस्वधी विजयन (एनआर-21761वाई), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन बृन्दा पी (एनआर-21762एफ), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन दीपिका शेखावत (एनआर-21763के), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन जी गीतु (एनआर-21764एम), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन लिली सामंता (एनआर-21765पी), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन संगीता फिलिप (एनआर-21766एक्स), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन ज्योति साहा (एनआर-21767ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अंजु सुदर्शन के (एनआर-21768एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन रंजिनी जी कृष्णन (एनआर-21769एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन अर्पिता चक्रवर्ती (एनआर-21770ए), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन हीमा जॉन (एनआर-21771एच), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन टुंगुंग सी (एनआर-21772एल), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन सुमन रावत (एनआर-21773एन), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन स्नेह यादव (एनआर-21774डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2010  
 कैप्टन प्रियमवदा जे (एनआर-21775वाई), 22 अक्टूबर 2010

जे के ग्रेवाल  
 मेजर जनरल  
 अतिरिक्त महानिदेशक, एमएनएस

सेना शाखा

सं. 463, दिनांक 16 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आईसी सं., नाम व आर्म

(आईसी-66179) राज सिंह, एसी

(आईसी-66180) आशीष अग्रवाल, मैक इंफैन्ट्री

(आईसी-66181) राकेश यादव, इंफैन्ट्री

(आईसी-66182) सैयद मोहम्मद आरीफ, एएससी

(आईसी-66183) रविंदर सिंह, इंफैन्ट्री

(आईसी-66184) तेजेन्द्र सिंह शक्तावत, इंफैन्ट्री

(आईसी-66185) महेश बेल्साद, इंफैन्ट्री

(आईसी-66186) सम्राट कौशल, आर्टी

(आईसी-66187) सौरभ डिड्डी, इंफैन्ट्री

(आईसी-66188) भगत अक्षय सुरेश, इंफैन्ट्री

(आईसी-66189) हर्ष वर्धन सिंह, इंफैन्ट्री

(आईसी-66192) रोहितकुमार अशोक पाटिल, इंफैन्ट्री

(आईसी-66193) बिरेन परांगडे, इंफैन्ट्री

(आईसी-66195) हिम्मत सिंह, एसी

(आईसी-66198) रवि कान्त, आर्टी

(आईसी-66199) बरुण सिंघा, आर्टी

(आईसी-66200) मिर्जा जहद बेग, इंफैन्ट्री

(आईसी-66201) सुनील यादव, इंफैन्ट्री

(आईसी-66202) लोखंडे पराग कृष्णाराव, आर्टी

(आईसी-66203) जितेश बी, इंफैन्ट्री,

(आईसी-66204) राणाडे चारुदत्त जयन्त, इंफैन्ट्री

(आईसी-66205) विजयेन्द्र प्रताप सिंह, इन्ट

(आईसी-66207) सतीश चन्द्र लखेडा, इंफैन्ट्री

(आईसी-66209) दामले अभिजीत रजनीकान्त, इंफैन्ट्री

(आईसी-66210) रोहित एस शेखावत, इंफैन्ट्री

(आईसी-66211) पुनीत मल्हौत्रा, इंफैन्ट्री

(आईसी-66212) मोहन राव, इंफैन्ट्री

(आईसी-66213) रोहित शर्मा, इंफैन्ट्री

(आईसी-66215) कपिल राय, इंफैन्ट्री

(आईसी-66216) रहेश बी कुरूप, इंफैन्ट्री

(आईसी-66219) विजयन्त बिष्ट, इंफैन्ट्री

(आईसी-66220) प्रवीण, एओसी

(आईसी-66221) नितिन राणा, इंफैन्ट्री

(आईसी-66222) अमन अमरिक सिंह, एएससी

(आईसी-66223) श्रीनिवासुलु के, इंफैन्ट्री

(आईसी-66224) काज़ी निहाल इसामुद्दीन, मैक इंफैन्ट्री



(आईसी-66225) एन तोषी, इंफैन्ट्री	(आईसी-66269) वरुण कुमार, आर्टी
(आईसी-66226) चक्कानातू शिबू जॉन, इंफैन्ट्री	(आईसी-66270) मिलिंद शर्मा, आर्टी
(आईसी-66227) विवेक एच सहाय, आर्टी	(आईसी-66271) भवानी सिंह राणावत, मैक इंफैन्ट्री
(आईसी-66229) मनोज कुमार तिवारी, आर्टी	(आईसी-66272) नरेश चन्द्र तिवारी, इंफैन्ट्री
(आईसी-66230) राधवेन्द्र सिंह, एएससी	(आईसी-66273) अतीत हैन्सन, इंफैन्ट्री
(आईसी-66231) जितेन्द्र सिंह शाकावत, इंफैन्ट्री	(आईसी-66274) विकास दुबे, इंफैन्ट्री
(आईसी-66232) घाटगे रमेश उदेयसिन, इंफैन्ट्री	(आईसी-66275) कचारे हर्षपाल वासुदेव, इंफैन्ट्री
(आईसी-66233) पाटिल अर्जुन सुरेश, एसी	(आईसी-66280) सिद्धार्थ सक्सेना, एसी
(आईसी-66234) निखिल वाध, इंफैन्ट्री	(आईसी-66281) सियान्ते के, आर्टी
(आईसी-66235) शैलेन्द्र सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-66282) ध्यानचन्द राजकुमार, आर्टी
(आईसी-66236) रंजन कुमार झा, आर्टी	(आईसी-66284) संदीप कुमार सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-66237) मनमीत सिंह लखा, मैक इंफैन्ट्री	(आईसी-66288) हिम्मत सिंह सांघा, इंफैन्ट्री
(आईसी-66238) अनंत राजू आर पी, इंफैन्ट्री	(आईसी-66291) विक्रांत कुमार झाल्टे, इंफैन्ट्री
(आईसी-66239) भारतेन्दू रावत, इंफैन्ट्री	(आईसी-66293) अनिल पुन, मैक इंफैन्ट्री
(आईसी-66241) जयवर्धन सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-66294) सर्बजीत सिंह, आर्टी
(आईसी-66242) रविश कुमार सिंह, आर्टी	(आईसी-66295) परिचय अरोड़ा, एसी
(आईसी-66243) अभय बिष्ट, मैक इंफैन्ट्री	(आईसी-66296) त्रिवेन्द्र सिंह राठौर, इंफैन्ट्री
(आईसी-66245) अमित द्विवेदी, इंफैन्ट्री	(आईसी-66297) सोमनाथ रॉय, आर्टी
(आईसी-66248) कूँवर सौरभ सिंह बिष्ट, इंफैन्ट्री	(आईसी-66298) अमन कुमार, मैक इंफैन्ट्री
(आईसी-66249) गोपाल मेहरा, इंफैन्ट्री	(आईसी-66300) पुखरामबम हीरोजीत सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-66250) बिक्रम सिंह सिधू, एओसी	(आईसी-66302) रजत शर्मा, आर्टी
(आईसी-66251) नरेश कुमार राणा राजपूत, आर्टी	(आईसी-66304) अतोम किरन कुमार सिंह, इंफैन्ट्री
(आईसी-66254) सुभाशीष मजुमदार, आर्टी	(आईसी-66305) इरेगबम जयन्तकुमार सिंह, आर्टी
(आईसी-66256) मनीष सिंह, आर्टी	(आईसी-66306) मनीष दधीच, एसी
(आईसी-66257) अमित बोरा, इंफैन्ट्री	(आईसी-66308) अभिषेक प्रकाश, एएडी
(आईसी-66258) जयपाल सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-66310) अभिषेक सिंघल, इंफैन्ट्री
(आईसी-66260) शोभित डोगरा, इंफैन्ट्री	(आईसी-66311) भरत सिंह चौहान, एसी
(आईसी-66263) साहिल ठाकुर, इंफैन्ट्री	(आईसी-66312) मनीष सिरोही, इंफैन्ट्री
(आईसी-66264) गुरविंदर सिंह, इंफैन्ट्री	(आईसी-66314) सुनन्दन नन्दी, आर्टी
(आईसी-66265) हरजीत सिंह, आर्टी	(आईसी-66316) गोडबोले आशिष विश्वनाथ, आर्टी
(आईसी-66266) अरुण के, इंफैन्ट्री	(आईसी-66317) आशिक रिशभ, मैक इंफैन्ट्री
(आईसी-66268) मनीष सिंह, इंफैन्ट्री	

--17 अप्रैल 2011--

## अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मैन)

## कप्तान से मेजर

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि और मेजर दिनांक से

(एसएस-40880) नीरज कुमार, मैक इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40883) थैबा सिमोन, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40885) बद्रि दत्त, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40886) किर्ति ध्वज सिंह शक्तावत, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40902) विवेक कुमार झा, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40913) राय रिजितेवन देबब्रत, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40919) चरेनामै मोसेस, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40939) लेंदिनोक्दांग, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40963) संदीप सालवान, एससी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40969) एच एन सुआंलिअन, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40972) उमा शंकर अधुपिया, मैक इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40973) चनामबम रुहिकांता सिंह, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40980) कौजेंगम राजेश बंता सिंह, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40981) रजत व्यास, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40993) गर्जेंदर सिंह छिकारा, एएडी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-40999) के धिरेन्द्र सिंह करमसोत, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41001) उमेश चंद्रा जी बजंजि, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41011) अविनाश शुक्ला, एएडी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41028) आदित्या पाटिल, एसी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41029) अहेइबम चा कॅसय, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41030) अशोक कुमार यादव, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41031) देवदत्त शर्मा, एओसी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41037) निशिय चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41040) अनुराग चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41041) थोंमग जीवंगो सिंह, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41047) हेमंथ भानु मचानि, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41048) असिफ अहमद के, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41052) सुंगवारपु नागेश, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41062) नीरज चोउधर्य, आर्टी, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41066) समीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41075) अभय शर्मा, मैक इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41077) आनंद टंडन, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41091) योगेंदर नाथ शर्मा, इन्फैन्ट्री, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-41093) राहुल सोनी, जेग, 17 सितम्बर 2004, एसएससी-78 (एनटी), 17 अप्रैल 2005/17 अप्रैल 2011

(एसएस-42378) ऋषिकेश मोहन पाटिल, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42379) सम्राट वशिष्ठ, एएडी, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42385) विजय मानिकंदन वैयापुरि, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42386) मधुसुदन गुरू, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42388) प्रदीप जयारामन, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42394) तगुंदे कुणल पूदलिक, इंजीनियर्स, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42397) संदीप कुमार सिंह, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42407) साल्वि समिर सतिश, सिग्नल्स, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42408) जोसेफ जोहन प्लाम्मुत्तिल, इंजीनियर्स, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

(एसएस-42409) अमरनाथ पी, ईएमई, 20 मार्च 2005, एसएससी-26 (टी), 20 अप्रैल 2005/20 अप्रैल 2011

प्रभात रॉस  
उप निदेशक  
एमएस-8सी

#### सेना शाखा

सं. 464, दिनांक 16 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन

स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

गौरव अत्री (एमएस-14928पी/एफ-27681एस), (एमआर-09137एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 06 नवम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अमृता परमार (एमएस-14927एम/एफ-27679ए), (एमआर-09146पी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 06 नवम्बर 2010 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

कप्तान के पद पर

बीनल धुरिया (एमआर-09039एन), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
ऋत्विक् मिश्रा (एमआर-09032के), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
विदुषी जोशी (एमआर-09025एन), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
मनजीत सिंह अहलावत (एमआर-09022ए), एएमसी, 10 फरवरी 2011

निकिता शर्मा (एमआर-09001के), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
पवन कुमार पाधी (एमआर-09028एफ), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
अंकुर निगम (एमआर-09026डब्ल्यू), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
शिल्पा वाजपेयी (एमआर-09021एक्स), एएमसी, 10 फरवरी 2011

अक्षय कुमार (एमआर-08994एफ), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
शताब्दी चक्रवर्ती (एमआर-08985ए), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
अनुभव सिंह (एमआर-09027वाई), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
संजीव मलिक (एमआर-09017पी), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
रितेश आचार्य (एमआर-08999ए), एएमसी, 10 फरवरी 2011  
राहुल गोयल (एमआर-08996एम), एएमसी, 10 फरवरी 2011

फ्लाईट लेफ्ट के पद पर

धीरज यादव (एमएस-15409वाई/एफ-28874जी), (एमआर-09133एक्स), एएमसी, 01 सितम्बर 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

अमृता परमार (एमएस-14927एम/एफ-27679ए), (एमआर-09146पी), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 05 जुलाई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

गौरव अत्री (एमएस-14928पी/एफ-27681एस), (एमआर-09137एन), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्ट के पद पर

स्वाती गर्ग (एमआर-08927डब्ल्यू)(76035एफ), एएमसी, 10 अगस्त 2010

लंका श्रीहर्षा (एमआर-08862एन)(75994एन), एएमसी, 11 फरवरी 2010

यश पांडे  
ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

#### सेना शाखा

सं. 465, तारीख 16 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

अल्प-कालीन कमीशन

ले से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि एवं कप्तान दिनांक से

(एसएस-43185) अजय बहादुर सिंह सिद्धु, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43189) गायकवाड अविनाश भरत, ईएमई, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43204) अरुण सिसोदिया, एएडी, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43206) नीरज नंदल, आर्टी, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43208) मृदुपावन बोरा, इन्फैंट्री, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43210) संजय सिंह यादव, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43224) सचिन पांडुरंग मोरे, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43225) आईयप्पा के ए, इन्फैंट्री, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43238) रोहित कटना, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43241) सुमित नैनीवाल, मैक, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43247) नवीन कुमार, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43252) अक्षत श्रीवास्तव, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43268) शेटी रोशन पांडुरंग, आर्टी, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43269) भरत सिंह बिष्ट, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43270) संदीप पांडेय, सिग्नल्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43274) अखंड प्रताप सिंह, आर्टी, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43300) अविनाश शर्मा, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43310) भानु पाठक, इन्फैंट्री, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43313) दिनेश सिंह चिब, इंजीनियर्स, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43314) राजकुमार यू वी, आर्टी, 20 सितम्बर 2008, एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

(एसएस-43321) पवनूर सिंह, एसी, 20 सितम्बर 2008,

एसएससी-86(एनटी), 20 अप्रैल 2009/20 अप्रैल 2011

प्रभात रॉस  
उप निदेशक  
एमएस 8सी

-----

सं. 466, तारीख 19 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर

मद्रास इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (लिपिक एसडी) के मूल पद में

पद, नाम, नम्बर एवं पदोन्नति की तिथि

सूबेदार लिपिक एस डी पविश्रन मिलपरवन (जेसी-306211एक्स), 13 मई 2010

सूबेदार लिपिक एस डी हरपाल सिंह (जेसी-307085एच), 03 मार्च 2011

सूबेदार लिपिक एस डी विरेंद्र कुमार स्वाकर (जेसी-307364एन), 03 जनवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी बास्कर बी (जेसी-305642एक्स), 07 जनवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी सत्या नारायणन के (जेसी-306173एम), 10 फरवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी राजकुमार सिंह (जेसी-306264डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2011

सूबेदार लिपिक एस डी जेम्स इंगने स्टेनली (जेसी-306290एक्स), 01 जनवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी राजकुमार देसाई (जेसी-306303के), 17 फरवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी के जया कुमार (जेसी-306342एच), 21 फरवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी जे रामाराज (जेसी-306627पी), 04 अप्रैल 2011

सूबेदार लिपिक एस डी भूपेन्द्र सिंह (जेसी-306836एम), 02 फरवरी 2011

सूबेदार लिपिक एस डी आर शक्तिवेल (जेसी-307042एन), 04 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी एस पजहनियप्पन (जेसी-307045एफ), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार लिपिक एस डी राजकुमार एस (जेसी-307046के), 02 अप्रैल 2011

सूबेदार लिपिक एस डी मनोहर लाल (जेसी-306146पी), 02 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी छोटे खान (जेसी-307169डब्ल्यू), 02 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी रणधीर यादव (जेसी-307171एन), 02 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी चांडीचरन दास (जेसी-307212एम), 02 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी गुनाशेकरन के (जेसी-307269एफ), 18 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी ईश्वरा मूर्ति (जेसी-307333एन), 02 मई 2011

सूबेदार लिपिक एस डी दीन दयाल (जेसी-307337के), 02 मई 2011

सूबेदार (लिपिक एस डी) के मूल पद में

नायब सूबेदार लिपिक एस डी मोहन सिंह (जेसी-308339एफ), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी सुनील कुमार सिंह (जेसी-308341वाई), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी पेकेती वी शिवानारायणा (जेसी-308347ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी वासुदेव (जेसी-308348एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी राज किशोर साहू (जेसी-308349एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी सुरेश कुमार सिंह (जेसी-308350ए), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी शंकर सिंह (जेसी-308351एच), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी गुरदास चंद (जेसी-308352एल), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी भिर्गु विश्वकर्मा (जेसी-308353एन), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी परमendra सिंह बिष्ट (जेसी-308376पी), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी दिलीप रोय (जेसी-308377एक्स); 05 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी ज्योतिश कुमार महांता (जेसी-308378ए), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी रोहताश सिंह (जेसी-308379एच), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी सुतार विद्यानंद महादेव (जेसी-308380एक्स), 01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी दयानंद सैनी (जेसी-308381ए), 01 मई 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी निर्मल बारक्या तोल्या (जेसी-308109एन), 01 मई 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी रक्श पॉल सिंह (जेसी-308400ए), 02 मई 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी प्रवाश राजन पांडा (जेसी-308401एच), 01 मई 2011

नायब सूबेदार लिपिक एस डी राधाकृष्णा टी (जेसी-308402एल), 02 मई 2011

सूबेदार (एसकेटी) के मूल पद में

नायब सूबेदार एस के टी भूपाल सिंह (जेसी-308167एक्स), 05 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार एस के टी वेमुलापल्लि सूर्यप्रकाश राव (जेसी-308331पी), 01 अप्रैल 2011

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नं., पदोन्नति की तिथि एवं ज्येष्ठता की तिथि वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

सूबेदार (जीडी) तनूगुंतला एन लक्ष्मणा मूर्ति (जेसी-306863डब्ल्यू), 18 मार्च 2011/01 मार्च 2011

सूबेदार (जीडी) सिबिचन के एस (जेसी-306918पी), 07 मई 2011/01 मई 2011

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (जीडी) श्री रंगादासन पी (जेसी-308845एम), 20 जून 2010/01 जून 2010

नायब सूबेदार (जीडी) ससीकुमार पी (जेसी-308949एन), 01 जून 2011/01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (जीडी) सी सांथन (जेसी-309385एच), 01 फरवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) सेंथिल्वेल एस (जेसी-309055के), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जे कुमार (जेसी-309160ए), 03 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) कमल सिंह (जेसी-309089एक्स), 01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) माडप्पा पी सी (जेसी-309091पी),  
31 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मंगलानंदन टी बी (जेसी-309092एक्स),  
01 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जपदेव बर्ला (जेसी-309094एच), 11 जनवरी  
2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) डी अनिल कुमार (जेसी-309099एफ),  
31 जनवरी 2011/01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) आर जयप्रसाद राव (जेसी-309107पी),  
16 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) पोन्नप्पा पी सी (जेसी-309108एक्स),  
04 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) आरुमुगम सी (जेसी-309087एम),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) राजीव टी एस (जेसी-309100एल),  
13 मार्च 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मंजुनाथ बी सी (जेसी-309104एफ),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) के पी मधु (जेसी-309109ए), 01 अप्रैल  
2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) एस हबीब अहमद (जेसी-309090एम),  
11 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जेसन जार्ज (जेसी-309101एन), 01 फरवरी  
2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बी बैकट रमनय्या (जेसी-309103वाई),  
24 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जोहन डाल्लास (जेसी-309088पी),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) के पी नागराजन (जेसी-309086के),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) सुलाजन आर (जेसी-309095एल),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) दुंगा विष्णु मुर्थि (जेसी-309096एन),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) थिरुपथि एम (जेसी-309097डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) दिनेश बाबु एम पी (जेसी-309098वाई),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मधुकुरि सुधाकर (जेसी-309102डब्ल्यू),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) शाजिमोन जेवीयर (जेसी-309105के),  
16 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) राधाकृष्णन ओ (जेसी-309106एम),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मट्ट्य रमना रेड्डी (जेसी-309063एच),  
01 फरवरी 2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) टीनु जोसफ (जेसी-309112ए), 05 मार्च  
2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) एम सेनप्पन (जेसी-309059ए), 01 फरवरी  
2011/01 फरवरी 2011

नायब सूबेदार (जीडी) मोहननन पिल्लै एस (जेसी-309085एफ),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) अनियन वी एम (जेसी-309066डब्ल्यू), 01  
मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) राधाकृष्णन नायर टी जी (जेसी-309070वाई),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) पी एस जगदीश (जेसी-309074पी),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) रवि एम (जेसी-309075एक्स), 01 मार्च  
2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) के आरुमुगम (जेसी-309077एच),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) महेंद्रन जी (जेसी-309078एल), 01 मार्च  
2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) लाली गोंडा बसन्ना गोड (जेसी-309079एन),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) श्री कुमारन नायर ए (जेसी-309069के),  
01 मार्च 2011/01 मार्च 2011

नायब सूबेदार (जीडी) विष्णु हेगडे (जेसी-309081एल), 01 अप्रैल  
2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) ऊस्सानार के सी (जेसी-309082एन),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) जे विनसेंट जेवीयर (जेसी-309062ए),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) चिन्नातम्बी एस (जेसी-309065एन),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) एस चेल्लादुरै (जेसी-309067वाई),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बाबु गौडा पाटिल (जेसी-309068एफ),  
11 मई 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) सिवानंद शंकर बंदागर (जेसी-309071एफ),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) ए ऐंजिलारसन (जेसी-309072के),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बाला सुंदरम डी (जेसी-309110पी),  
01 अप्रैल 2011/01 अप्रैल 2011

नायब सूबेदार (जीडी) बाबु डी (जेसी-309138पी), 01 मई 2011/  
01 मई 2011

सूबेदार मेजर (लिपिक एसडी) के मूल रैंक में

सूबेदार क्लर्क (एसडी) कालिया पेरुमाल एन (जेसी-306335एम),  
04 मई 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) रवींद्रन पिल्लई बी (जेसी-306313एन),  
07 जून 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) थोमस वी ऐ (जेसी-306347एफ),  
12 जुलाई 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) मुरली एन (जेसी-306355ए), 03 जून  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) के बोस (जेसी-306546पी), 08 सितम्बर  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) जेम्स पी (जेसी-306551ए), 05 जुलाई  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुनिल कुमार के एम (जेसी-306556वाई),  
02 जुलाई 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) वी उन्निक्किषनन (जेसी-306581एक्स),  
02 अगस्त 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) दासन पी के (जेसी-306621एन),  
07 अगस्त 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) प्रकाशन वी के (जेसी-306651एल),  
02 सितम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) चंद्रन एम (जेसी-306980एफ), 01 सितम्बर  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) यादो कुट्टे (जेसी-306663ए), 01 सितम्बर  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) महेंद्र प्रताप शर्मा (जेसी-306664एच),  
01 सितम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) जगदीश यादवा (जेसी-306672एफ),  
05 अक्टूबर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) ओम शिव सिंह (जेसी-306698डब्ल्यू),  
04 अक्टूबर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) एच सी ध्यानी (जेसी-306701एल),  
04 अक्टूबर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) उषेंद्र कुमार (जेसी-306733एन),  
04 नवम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) बिट्टी सी कुरियाकोस (जेसी-306781एन),  
15 दिसम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) महाबीर सिंह (जेसी-306820एफ),  
01 नवम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) जय इंद्रा (जेसी-306835के), 03 दिसम्बर  
2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) शहश पाल (जेसी-306843एच),  
01 दिसम्बर 2010

सूबेदार क्लर्क (एसडी) उत्तम कुमार महापत्रा (जेसी-307040एच),  
22 दिसम्बर 2010

सूबेदार मेजर (एसकेटी) के मूल रैंक में

सूबेदार (एसकेटी) लीलू राम (जेसी-305963पी), 01 जुलाई 2010

सूबेदार (लिपिक एसडी/आईएम) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) शियो प्रसन मिश्रा (जेसी-307356पी),  
02 मार्च 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुशांता कुमार सरकार  
(जेसी-307827एक्स), 02 मार्च 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अशोक दास (जेसी-307539एल),  
01 मार्च 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मेहता मुकेश कुमार  
(जेसी-307695पी), 02 मार्च 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जोदेव दंडापत (जेसी-307999एम),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जी नागराजन (जेसी-308074एच),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) एम रामचंदर (जेसी-308104पी),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के करुना निधी (जेसी-308105एक्स),  
20 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) वी के माधवन (जेसी-308106ए),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रबिंदर सिंह (जेसी-308107एच),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) येवले नानाभाऊ मारुती  
(जेसी-308108एल), 28 जून 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जे सरवणन (जेसी-308110एच),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) इलुमलाई एन (जेसी-308121पी),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) गणेशन ऐ (जेसी-308122एक्स),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) राजेंद्र कुमार (जेसी-308123ए),  
01 अप्रैल 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अनिल कुमार (जेसी-308124एच),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) लखन पाल (जेसी-308146एफ),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेश कुमार (जेसी-308168ए),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) करण सिंह (जेसी-308169एच),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) फूल सिंह (जेसी-308170एक्स),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेश चंद्रा (जेसी-308193वाई),  
01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) शीष राम कुल्हारी (जेसी-  
308194एफ), 01 मई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) छोटू राम (जेसी-308195के),  
01 जून 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुल्तान सिंह सैनी (जेसी-308196एम),  
01 जून 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) राम करण जाट (जेसी-308197पी),  
01 जून 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) विनय कुमार मिश्रा (जेसी-  
308198एक्स), 01 जून 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) एम गुजा मूर्ति (जेसी-308330एम),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) नागराजय्या के (जेसी-308199ए),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुरेंद्रा प्रसाद (जेसी-308223एल),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) पी राजेंद्रन (जेसी-308224एन),  
01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) विनोद कुमार चौरासिया  
(जेसी-308226वाई), 02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) चंद्रा मौली मिश्रा (जेसी-308227एफ),  
02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मधू एम (जेसी-308228के),  
02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जे प्रसाद सिंह (जेसी-308229एम),  
02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) देवराजन एके (जेसी-308256डब्ल्यू),  
02 अगस्त 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (आई एम) जोण विक्टर सिरा  
(जेसी-308257वाई), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुनिल कुमार सिन्हा  
(जेसी-308258एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) महेश सिंह (जेसी-308274वाई),  
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) ए चंद्रा रोउत्रे (जेसी-308275एफ),  
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मोहन पाटील (जेसी-308277एम),  
01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मनोज कुंडू (जेसी-308278पी),  
06 जनवरी 2011

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) रेजी एस (जेसी-308279एक्स),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) कदम दादासाहेब बंडू  
(जेसी-308299एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) शम्भू दत्त (जेसी-308300पी),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) मलिखान सिंह (जेसी-308301एक्स),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जितेंद्र कुमार सामल (जेसी-308302ए),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) कैलाश चंद्र साहू (जेसी-308303एच),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अजय कुमार रोउत्रे (जेसी-308304एल),  
04 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) देवेंद्र कुमार मलिक (जेसी-308305एन),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) वीर सिंह (जेसी-308315एक्स),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सुभाष चंद्रा (जेसी-308316ए),  
01 नवम्बर 2010



नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) सनातन मंडल (जेसी-308317एच),  
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) अजय कुमार पी वी (जेसी-308333ए),  
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) आनंद कुमार एम आर  
(जेसी-308335एल), 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) संजय कुमार (जेसी-308337डब्ल्यू),  
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) जी ऊथापथी (जेसी-308338वाई),  
01 दिसम्बर 2010

सूबेदार (एसकेटी) के मूल रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) अशफ़ी लाल (जेसी-307914एल),  
01 जून 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) सत्यपाल सिंह (जेसी-307941पी), 01 जुलाई  
2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) लज्जा राम (जेसी-307993एल), 01 सितम्बर  
2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) अवध बिहारी (जेसी-308032डब्ल्यू),  
08 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) सुरेश चंद्रा टी (जेसी-308038एक्स),  
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार (एसकेटी) बीरी सिंह (जेसी-308120एम),  
01 दिसम्बर 2010

अलका जोशी  
अवर सचिव

#### सेना शाखा

सं. 467, दिनांक 19 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 25 जून 2010 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं। और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्ला अफसर के पद पर (परख पर)

अमृता परमार (एमएस-14927एम), (एफ-27679ए), एम  
आर-09146पी, एएमसी, 21 फरवरी 2005

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]

गौरव अत्री (एमएस-14928पी), (एफ-27681एस), एम  
आर-09137एन, एएमसी, 21 फरवरी 2005

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]

धीरज यादव (एमएस-15409वाई), (एफ-28874जी), एम  
आर-09133एक्स, एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

[भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है]

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 468, दिनांक 19 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने के पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से त्याग पत्र देने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(आईसी-59647) मेजर चैतन्य पाण्डे, ईएमई 16 मई 2010 (अप)

(डब्ल्यू एस-00728) मेजर अमन शर्मा, सिग्नल्स, 27 दिसम्बर 2010 (अप)

वन्दना दुबे

उप निदेशक

एमएसपीआर

थल सेना शाखा

सं. 469, दिनांक 20 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

(एमआर-2985के) लेफ्टि जनरल एस आर मेहता, एवीएसएम, वीएसएम, पीसी, 31 मई 2010 (अपराह)

(एमआर-3318एच) लेफ्टि जनरल पी भार्गवा, वीएसएम, पीसी, 31 अगस्त 2010 (अपराह)

(एमआर-3848एक्स) मेजर जनरल एस के नीमा, पीसी, 28 फरवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-4036डब्ल्यू) मेजर जनरल ए के दूबे, वीएसएम, पीसी, 30 जून 2010 (अपराह)

(एमआर-4476के) ब्रिगे ए के चौधरी, पीसी, 30 जून 2010 (अपराह)

(एमआर-4227एल) ब्रिगे डी सलदाहना, पीसी, 30 जून 2010 (अपराह)

(एमआर-4238एक्स) ब्रिगे अनिल खेतरपाल, पीसी, 31 जुलाई 2010 (अपराह)

(एमआर-3845एम) ब्रिगे ए के लवनिया, पीसी, 31 अगस्त 2010 (अपराह)

(एनटीआर-4220एफ) ब्रिगे राकेश कुशवाहा, पीसी, 30 नवम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-16369पी) ब्रिगे वाई एस गुलेरिया, पीसी, 30 अप्रैल 2010 (अपराह)

(एमआर-5608वाई) कर्नल एन के बिस्वास, पीसी, 28 फरवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-4622वाई) कर्नल ए एम प्रभाकरा, पीसी, 31 मई 2010 (अपराह)

(एमआर-3458पी) कर्नल विजय ताओदे, पीसी, 31 अगस्त 2010 (अपराह)

(एमआर-4494एम) कर्नल पी एम बेडेकर, पीसी, 31 अक्टूबर 2010 (अपराह)

(एमआर-4544एम) कर्नल आर मुरलीधर, पीसी, 31 जनवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-4235के) कर्नल एस एस पुराई, पीसी, 31 अगस्त 2010 (अपराह)

(एमआर-4505एन) कर्नल जे एन लाखे, पीसी, 30 सितम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-4303एम) कर्नल बी के गुप्ता, पीसी, 30 सितम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-4388एन) कर्नल हरीश टूटेजा, पीसी, 31 जनवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-5767डब्ल्यू) कर्नल हेमन्त कुमार, पीसी, 31 दिसम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-4475एफ) कर्नल संजय गर्ग, पीसी, 31 जनवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-5388ए) कर्नल एल सी चामनिया, पीसी, 31 दिसम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-5078पी) कर्नल एम एम सिंह, पीसी, 31 जनवरी 2011 (अपराह)

(एमआर-4555वाई) कर्नल पी सी शर्मा, पीसी, 30 नवम्बर 2010 (अपराह)

(एमआर-3529एल) कर्नल वी के नायर, पीसी, 31 अक्टूबर 2010 (अपराह)

(एमआर-4120डब्ल्यू) कर्नल पी के भाटिया, पीसी, 31 अक्टूबर 2010 (अपराह)

(एमआर-4841ए) कर्नल एल एन अगरवाल, पीसी, 31 अक्टूबर 2010 (अपराह)

(एमआर-3887डब्ल्यू) कर्नल एम एस चाहल, वीएसएम, पीसी, 30 सितम्बर 2010 (अपराह)

(एमटीआर-16489एन) कर्नल जी एस रिआर, पीसी, 30 अप्रैल 2010 (अपराह)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

-----

सेना शाखा

सं. 470, दिनांक 20 सितम्बर 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

शुद्धिपत्र

109 टीजीसी एवं 18 यूईएस पाठ्यक्रम के संबंध में, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12 फरवरी 2011 को प्रकाशित की अधिसूचना के

शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) लेफ्टिनेंट के पद पर के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

वैयक्तिक संख्या एसएस-43993एक्स, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-43994ए, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-43995एच, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-43997एन, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-43998डब्ल्यू, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-43999वाई, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-44000ए, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-44001एच, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-44002एल, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

वैयक्तिक संख्या एसएस-44003एन, के सामने अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) की तिथि

के लिए--03 मई 2009

पढ़ें--15 जुलाई 2009

पी के शास्त्री

मेजर

ए एम एस 8बी

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th October 2011

No. 454, dated 13th September 2011—The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended :—

## REGULAR ARMY

## ARMY DENTAL CORPS

## SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt (On Prob)

Piyush Pathak (DS-12377W), 28 Aug 2010

[with seniority for pay and promotion from 28 Aug 2007 (includes 36 months ante date for MDS Degree from College of Dental Sciences, Davangere, Karnataka) for the period from May 2006 to May 2009, which will not count for gratuity].

Abir Sarkar (DS-12384M), 03 Sep 2010

[with seniority for pay and promotion from 03 Mar 2010 (includes 06 months ante date for paid job House Surgeon in Dr. R Ahmed Dental College & Hospital, Kolkata) for the period from 01 Nov 2009 to 31 Aug 2010, which will not count for gratuity].

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

## ARMY BRANCH

No. 455, dated 13th September 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Lt (On Prob)

Lt Arunchand R (MR-09196A), AMC, 18 Mar 2011

Lt Ishan Aggarwal (MR-09195X), AMC, 18 Mar 2011

Lt Kamparsh Thakur (MR-09191F), AMC, 18 Mar 2011

Lt Piyush Khatkar (MR-09190Y), AMC, 18 Mar 2011

Lt Gaurav Pathania (MR-09181X), AMC, 18 Mar 2011

YASH PANDE

Brig

Dy DGAFMS (HR)

## INTEGRATED HQs OF MOD (ARMY)

## MILITARY ENGINEER SERVICES

No. 456, dated 13th September 2011—The President is pleased to appoint the following officers as the designation

showed before their name from the date as mentioned against their name:—

Rank, Name, Mes No. and Date

AE (QS&amp;C) Radhey Shyam Soni (186117), 26 Apr 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Vijay Kumar Sharma (314273), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Nirmal Singh (509142), 10 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Elizua Daniel (109697), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Geetha Mahendran (109700), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Mohan Chandra Rowmura (239127), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Anil Kumar Doley (281008), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Sujala Ram Baro (238975), 14 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Sashi Kumar Raina (507045), 21 Mar 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) K Rajesh (180807), 12 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) K Soman (507375), 11 Feb 2011 (AN)

AE (QS&amp;C) Beerpall Singh (471293), 12 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Aniladevi MK (187883), 11 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) Basti Ram (314223), 01 Feb 2011 (AN)

AE (QS&amp;C) Ankush D Pandhre (600213), 14 Feb 2011 (FN)

AE (QS&amp;C) VK Mohanan (144368), 12 Feb 2011 (FN)

AE (E/M) Madan Lal (363153), 30 May 2011 (FN)

AE (E/M) Shirish Kashinath Gijare (600387), 31 May 2011 (FN)

AE (E/M) Deelip Vishwanath Divate (170900), 30 May 2011 (FN)

AE (E/M) Bachnu Molairam (123500), 27 Jul 2009 (FN)

AE (E/M) R Manivannan (134284), 30 May 2011 (FN)

AO-I Mary Benjamin Lama (266015), 11 Mar 2011 (FN)

TO Sadguan J Macwan (186062), 09 Sep 2009 (FN)

TO Vyankatrao Madhukar Vibhute (164490), 23 Oct 2007 (FN)

TO Bhagachand Yashwant Nangare (159748), 01 May 2008 (FN)

BSO Jallipalli Rajasekhar (189314), 31 Jan 2011 (FN)

AO-II Jasbir Singh (312410), 16 Oct 2009 (FN)

AO-II Shailendra Madhukar Gaikwad (123828), 02 Dec 2010 (FN)

AO-II Ram Kishan (364329), 16 Oct 2009 (FN)

Asstt Arch-II Shashi Lata Singh (300461), 31 Dec 2010 (FN)

ALKA JOSHI  
Under Secy

INTEGRATED HEADQUARTERS-MIN OF DEFENCE  
(NAVY)

(DTE OF ADMIN/CIV SECTION)

No. 457, dated 14th September 2011—The appointment of the following Officers of AFHQ Civil Service has been extended as Section Officer Group 'B' (Gaz) by the Competent Authority in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with GP Rs. 4,800/- under Rule 7(8) of AFHQ Civil Service 2001 for the period mentioned against their name or till regular incumbents become available or till such time the Officer retires, whichever is earlier:—

AK Panwar, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Amarjit Salhotra, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Amrit Lal, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Ashok Sharda, 01 Jan 2011/31 Jan 2011  
Balwan Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Bansi Lal, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
BP Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Biksh Krishna, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Chand Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Chandi Ram, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
DP Khurana, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Debasis Pradhan, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
DK Prasad, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Dinesh Chandra, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Ghanshyam Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Gurbachhan Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Gurmeet Mukha, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Het Prakash, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Indrani Gupta, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
IS Bramniya, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
JC Bisht, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
JP Meena, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
KI Mamchand, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Kailash Chand, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Kailash Rani, 01 Jan 2011/30 Jun 2011

MC Vashist, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
M Nandan, 01 Jan 2011/31 May 2011  
Mahesh Kumar, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Manjushri Dass, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Narendar Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Neeraj Ranjan, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Om Veer, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Prem Kumar, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Raj Pal Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Raj Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Roop Chand, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
SK Barman, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Satvir Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Satwinder Singh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Saumyajit Mondal, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Savitri Parcha, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Shashi Alagh, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Shailendra Kapoor, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Sneh Rani Saxena, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Subash Biswas, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Sudesh Kapur, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Sunita Mongia, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Syamala Raman, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
TS Negi, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Uday Kapat, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
V Ramu, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Vinay Kumar, 01 Jan 2011/30 Jun 2011  
Vinod Kumar, 01 Jan 2011/28 Feb 2011

This appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

AK LAROIYA  
Dy CAO (A)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT  
ORGANIZATION

No. 458, dated 14th September 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

The under mentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/-:—

Pin No., Name, Estt./Lab and Date of Joining

2008 AB1652 Shri R Ramalingam, ADE, Bangalore, 18 Sep 2008

2010AB1057 Shri Sridhar Dasari, ADE, Bangalore, 19 May 2010

2010AB1170 Shri Karun Roat, ARDE, Pune, 19 May 2010

2008AB1049 Shri Suresh Mamidipalli, ARDE, Pune, 21 May 2008

2010AB1136 Shri Raj Alexander Y, ASL, Hyderabad, 19 May 2010

2010AB1059 Shri Yashwant A Deshmukh, ASL, Hyderabad, 19 May 2010

2009AB1559 Shri Bhargov Bora, ANURAG, Hyderabad, 01 Dec 2009

2008AB/1117 Shri Nitin Kumar, CABS, Bangalore, 21 May 2008

2009AB1577 Shri Antim Maida, CABS, Bangalore, 01 Dec 2009

2009AB1342 Shri S Selvakumar, CABS, Bangalore, 03 Jun 2009

2009AB1138 Shri Rajesh Kumar Lakwal, CABS, Bangalore, 03 Jun 2009

2008AB1154 Shri Sanjay Kumar Sanjay, CEMILAC, Bangalore, 21 May 2008

2009AB1124 Shri Vasantha Raj M, CVRDE, Chennai, 03 Jun 2009

2008AB1198 Shri Ravi Kumar Dara, CVRDE, Chennai, 21 May 2008

2010AB1137 Shri K Dileep Reddy, CVRDE, Chennai, 19 May 2010

2009AB1082 Shri D Rammoorthy, CVRDE, Chennai, 31 Jul 2009

2010AB1247 Ms Shruti Rawal, DEAL, Dehradun, 08 Nov 2010

2010AB1248 Shri Nitin Nageen, DEAL, Dehradun, 23 Dec 2010

2009AB1160 Shri Akshay Jain, DEAL, Dehradun, 03 Jun 2009

2009AB1120 Shri Vikash Kumar, DEBEL, Bangalore, 04 Jun 2009

2009AB1046 Ms Esha Chakraborty, DIPR, Delhi, 03 Jun 2009

2010AB1119 Shri Soumyadeep Biswas, DLRL, Hyderabad, 19 May 2010

2011AB1003 Shri Abhinav Dube, DLRL, Hyderabad, 09 Feb 2011

2008AB1323 Shri Ratan Guljar Toppo, DMRL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1330 Ms Anju Nirwan, DMSRDE, Kanpur, 21 May 2008

2008AB1339 Shri Chowdam Ramakrishna, DRDE, Gwalior, 21 May 2008

2009AB1130 Smt. Malti Variganji, DRDL, Hyderabad, 03 Jun 2009

2009AB1546 Shri Waseem Shafi, DRDL, Hyderabad, 01 Dec 2009

2008AB1361 Shri B Venkata Rama Subbaiah, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1379 Ms Meenakshi Patil, DRDL, Hyderabad, 21 May 2008

2009AB1606 Shri Ankit Raj, DRDL, Hyderabad, 01 Dec 2009

2009AB1526 Shri K Srinivasan, GTRE, Bangalore, 01 Dec 2009

2009AB1611 Ms Pallavi Varshneya, GTRE, Bangalore, 01 Dec 2009

2009AB1311 Shri Katore Mahesh Sopan, HEMRL, Pune, 03 Jun 2009

2008AB1130 Ms Susree Sangita Das, ITR, Balasore, 21 May 2008

2008AB1133 Ms Mamta Meena, LSTEC, Delhi, 21 May 2008

2008AB1213 Shri Anshath Hussain N, NPOL, Kochi, 21 May 2008

2008AB1602 Shri Amit Kumar, NMRL, Ambarnath, 03 Dec 2008

2008AB1234 Shri Sanjaya Kumar Swain, NSTL, Vishakhapatnam, 21 May 2008

2009AB1115 Shri Kiran Kumar RV, NSTL, Vishakhapatnam, 03 Jun 2009

2009AB1089 Shri Ansar Ahmad Mansoor, RCI, Hyderabad, 03 Jun 2009

2008AB1282 Shri Madan Lal Kasotiya, RCI, Hyderabad, 21 May 2008

2009AB1583 Shri Kumar Ashlesh, RCI, Hyderabad, 01 Dec 2009

2008AB1563 Shri Kumod Kumar Sharma, R&DE(E), Pune, 03 Dec 2008

2010AB1162 Shri Nitin Kumar Ashok Pol, R&DE(E), Pune, 19 May 2010

2009AB1326 Shri B Vinayaka Gautham, R&DE(E), Pune, 03 Jun 2009

2009AB1325 Shri Ankit Varshney, R&DE(E), Pune, 03 Jun 2009

2009AB1362 Shri Sanjeev Kumar, SSPL, Delhi, 03 Jun 2009

2009AB1688 Shri Nitish Raj, WESEE, Delhi, 01 Dec 2009

NARSINGH SAHU  
Jt Director

No. 459, dated 14 September 2011—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D(Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 01 Mar 2010 :—

#### REGULAR ARMY

#### MILITARY NURSING SERVICES

#### PERMANENT COMMISISON

#### To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number, Date of Birth

Lt Aahuti (NR-22205P), 04 May 1985

Lt Gunja Kumari (NR-22206X), 14 Sep 1983

Lt Chandrakala Bisht (NR-22207A), 24 Feb 1986

Lt Jyoti Sachan (NR-22208H), 30 Sep 1985

Lt V Vidya (NR-22209L), 21 Dec 1987

Lt Mamta Devi (NR-22210A), 04 May 1987

Lt Seeba Baby (NR-22211Y), 28 Apr 1987

Lt Ravinder Kaur (NR-22212L), 21 Oct 1985

Lt Saikhom Usharani Devi (NR-22213N), 10 Mar 1988

Lt Cheshta Rani (NR-22214W), 14 Jan 1988

Lt Jagriti Baluni (NR-22215Y), 11 Feb 1988

Lt Sunita Bisht (NR-22216F), 26 Mar 1983

Lt Ranjana Bhandari (NR-22217K), 03 May 1985

Lt Kema Bhat (NR-22218M), 02 Sep 1985

Lt Dhanya Mohandas (NR-22219P), 05 Apr 1986

Lt Sanju Lata (NR-22220K), 21 Feb 1984

Lt Harpuneet Kaur (NR-22221M), 19 Dec 1987

Lt Sangeeta Singh (NR-22222P), 17 Mar 1986

Lt Daisy DP (NR-22223X), 20 Feb 1988

Lt Sunita Nodiyal (NR-22224A), 21 Jun 1982

Lt Chingneizou (NR-22225H), 29 May 1982

Lt Sadhana Tiwari (NR-22226L), 11 Nov 1985

Lt Swati Thakur (NR-22227N), 23 Sep 1987

Lt Anamika Mishra (NR-22228W), 06 Apr 1988

Lt Bhavna Thakur (NR-22229Y), 08 Apr 1987

Lt Nimmy Sasidharan (NR-22230N), 16 Sep 1987

Lt Rachna Pathak (NR-22231W), 05 Nov 1985

Lt Annu Chaudhary (NR-22232Y), 22 Oct 1983

Lt Shalini Sukumaran (NR-22233F), 07 Jul 1987

Lt Neetika Rana (NR-22234K), 22 Jun 1988

Lt Manjushri Kumari (NR-22235M), 26 Jun 1987

Lt Smriti Gurung (NR-22236P), 01 Jul 1983

Lt Komal Rana (NR-22237X), 01 Jan 1985

Lt Mamta Verma (NR-22238A), 04 Jun 1986

Lt Jyoti Rathore (NR-22239H), 05 Jan 1988

Lt Saby S Basheer (NR-22240X), 28 Dec 1987

Lt Jeeja John (NR-22241A), 23 Apr 1988

Lt Suman Pandey (NR-22242H), 05 Jul 1986

Lt Amrita Roy (NR-22243L), 09 Apr 1986

Lt Ankita Tewari (NR-22244N), 23 Sep 1986

Lt Dolly Gupta (NR-22245W), 05 Dec 1988

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services under the provision of Govt of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 14 Sep 2009 (Seniority from 14 Sep 2008 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing) :—

#### To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Christina Eleazar (NS-21971Y), 14 Feb 1977

Lt Shini SL (NS-21972F), 16 Jun 1982

Lt Kavitha G (NS-21973K), 17 Nov 1982

Lt Manjula Rani S (NS-21974M), 01 Feb 1977

Lt Sarita Sagar (NS-21975P), 01 Mar 1981

Lt Jyoti Rani Hooda (NS-21976X), 06 Feb 1986

Lt Chetan Pal (NS-21977A), 26 Oct 1986

Lt Aswathi B (NS-21978H), 20 May 1987

Lt Anitha A (NS-21979L), 18 Aug 1984

Lt Viji T (NS-21980A), 21 Jun 1986	Lt C Kumudha (NS-22017N), 16 Jun 1984
Lt Navjeet Kaur (NS-21981H), 23 Jun 1987	Lt M Geetha Rani (NS-22018W), 11 Aug 1984
Lt Yasmin Malik (NS-21982L), 28 Feb 1986	Lt Smita Gupta (NS-22019Y), 23 Sep 1984
Lt Jyoti (NS-21983N), 16 May 1987	Lt Urvashi Sharma (NS-22020N), 20 Jan 1985
Lt Jonali Devi (NS-21984W), 31 Aug 1983	Lt Vijay Chanchana S (NS-22021W), 31 Jul 1985
Lt M Lalitha (NS-21985Y), 09 Feb 1984	Lt Anju Meel (NS-22022Y), 01 Aug 1984
Lt Vani S (NS-21986F), 17 Jan 1985	Lt Anurita (NS-22023F), 08 Jun 1982
Lt Priya (NS-21987K), 04 Nov 1987	Lt Rajesh Kumari (NS-22024K), 30 Jul 1986
Lt V Mohana (NS-21988M), 20 May 1984	Lt Susee P (NS-22025M), 31 May 1985
Lt A Ramyapriya Darsini (NS-21989P), 14 Jun 1985	Lt Navjeet Kaur (NS-22026P), 02 Jun 1985
Lt Sheena M Thomas (NS-21990K), 20 Jan 1984	Lt Manjari Kumari (NS-22027X), 26 Nov 1985
Lt Anju (NS-21991M), 07 Jun 1984	Lt JS Gladsin Jemi (NS-22028A), 10 Apr 1986
Lt Anu R Sasidharan (NS-21992P), 27 May 1986	Lt Padmaja Bandaru (NS-22029H), 04 Jun 1986
Lt Boddu Jyosthsna Devi (NS-21993X), 12 Jun 1986	Lt Ancy Jose (NS-22030X), 07 Mar 1986
Lt Ruchi Sharma (NS-21994A), 06 Oct 1987	Lt S Sumathi (NS-22031A), 02 Apr 1984
Lt Dara Ruthangel Sinai (NS-21995H), 19 Aug 1986	Lt Konakondla Priyadarsini (NS-22032H), 10 Jul 1984
Lt G Nagamani (NS-21996L), 22 May 1984	Lt Revathy K (NS-22033L), 01 Aug 1985
Lt T Srividyalakshmi (NS-21997N), 20 Jun 1979	Lt G Ahilambika (NS-22034N), 12 May 1986
Lt Gayatri Devi (NS-21998W), 27 Feb 1982	Lt Melody Lalengmawii (NS-22035W), 31 Aug 1984
Lt Dasari Navaneetha (NS-21999Y), 09 Jul 1986	Lt Rekha AS (NS-22036Y), 10 Jul 1986
Lt Surekha Soni (NS-22000A), 28 Jan 1986	Lt Kiran Malik (NS-22037F), 22 Feb 1987
Lt Kotloni N Kousal Yadevi (NS-22001F), 13 Mar 1986	Lt Divyasree PS (NS-22038K), 20 Aug 1985
Lt Komathiswamy G (NS-22002L), 12 Jan 1978	Lt K Subbulakshmi (NS-22039M), 16 Apr 1983
Lt Mansi Goel (NS-22003N), 13 Mar 1987	Lt Palla SP Devi (NS-22040F), 01 Jan 1983
Lt Sridevi Kakarla (NS-22004W), 20 Jun 1979	Lt S Chitra (NS-22041K), 20 Jun 1986
Lt Vadala Vijaya (NS-22005Y), 04 Dec 1979	Lt Prasita Nair (NS-22042M), 12 Mar 1983
Lt Jyoti R (NS-22006F), 30 May 1982	Lt Thingom Bidya Devi (NS-22043P), 03 Feb 1984
Lt N Banu Priya (NS-22007K), 28 Feb 1986	Lt Amrita Chhattar (NS-22044X), 21 Mar 1981
Lt Vaneja Kesawan (NS-22008M), 20 Dec 1980	Lt Renu Rathore (NS-22045A), 17 Feb 1986
Lt Kumudini Kullu (NS-22009P), 06 Feb 1982	Lt Sugunamma Appa (NS-22046H), 15 May 1986
Lt Vanitha C (NS-22010K), 24 Jun 1981	Lt DH Angela (NS-22047L), 02 Jul 1983
Lt S Aksha Clementia (NS-22011M), 31 Aug 1982	Lt Divya Kurup (NS-22048N), 25 May 1986
Lt Neelam Bisht (NS-22012P), 03 Jun 1985	Lt Sweety Luke (NS-22049W), 07 Nov 1986
Lt Lekha C (NS-22013X), 20 Mar 1986	Lt Neha Kumari Sethi (NS-22050L), 03 Mar 1987
Lt Ranjitha NS (NS-22014A), 06 Jan 1985	Lt Mary Angel AA (NS-22051N), 28 Apr 1982
Lt Rajee George (NS-22015H), 26 Sep 1983	Lt Rajyalakshmi Kukumani (NS-22052W), 15 Mar 1986
Lt Poornima B (NS-22016L), 05 Jun 1984	Lt P Binakka (NS-22053Y), 08 Feb 1986

Lt Rajeswari Karumanchi (NS-22054F), 20 May 1978  
 Lt R Ramya (NS-22055K), 24 Jul 1986  
 Lt Daljit Kaur (NS-22056M), 18 Feb 1985  
 Lt Liji Cherian (NS-22057P), 27 Nov 1985  
 Lt Ritu Moni Deka (NS-22058X), 01 Jan 1981  
 Lt Swarna Kumari Ogirala (NS-22059A), 15 Jun 1984  
 Lt T Gracy Abigail (NS-22060P), 08 Aug 1984  
 Lt Priyanka Priya Darshani Palata (NS-22061X), 26 Jan 1986  
 Lt A Sumathi (NS-22062A), 07 Apr 1982  
 Lt Yengkhom Anandi Chanu (NS-22063H), 01 Mar 1983  
 Lt D Ruthvinay Sheela (NS-22064L), 09 Feb 1985  
 Lt Waikhom Renuta Devi (NS-22065N), 01 Mar 1985  
 Lt Farah Anjum (NS-22066W), 10 Sep 1985  
 Lt Alka (NS-22067Y), 05 Oct 1986

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt. of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 01 Mar 2010 :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Surupa Dev (NS-22246Y), 31 Aug 1986  
 Lt Monisha Nair (NS-22247F), 14 Oct 1987  
 Lt Priyanka Rai (NS-22248K), 03 May 1988  
 Lt Naznee Bano (NS-22249M), 16 Apr 1988  
 Lt Nisha Sharma (NS-22250F), 25 Jul 1988  
 Lt Devi VP (NS-22251K), 19 May 1987  
 Lt Kanaka Kanti Shirisha Y (NS-22252M), 22 Aug 1987  
 Lt Anupama Kumari (NS-22253P), 05 Feb 1987  
 Lt Preenu Paulson (NS-22254X), 19 Feb 1988  
 Lt L Ringyaola (NS-22255A), 25 Oct 1986  
 Lt Manju Bala (NS-22256H), 16 Jun 1988  
 Lt Maneesha Krishna Nandan (NS-22257L), 03 Mar 1988  
 Lt Shalini Kushwaha (NS-22258N), 05 Feb 1985  
 Lt Arti Prakash (NS-22259W), 17 Mar 1985  
 Lt Urmila Bharti (NS-22260L), 30 Jul 1986  
 Lt Asha Rani Sharma (NS-22261N), 28 Jan 1986  
 Lt Neha Sachan (NS-22262W), 22 Apr 1988

Lt Deepika Patyal (NS-22263Y), 21 Oct 1987  
 Lt Neha Verma (NS-22264F), 14 May 1987  
 Lt Noopur Sharma (NS-22265K), 03 Oct 1987  
 Lt Raj Sanjivani (NS-22266M), 09 Sep 1985  
 Lt Pushpinderjit Kaur (NS-22267P), 01 Sep 1986  
 Lt Robina Nasrani (NS-22268X), 10 Jul 1986  
 Lt Anuradha (NS-22269A), 31 Mar 1985  
 Lt H Priyadarshini Devi (NS-22270P), 22 Oct 1987  
 Lt Hema Bist (NS-22271X), 15 Dec 1981  
 Lt Nidhi Sharma (NS-22272A), 07 Jul 1987  
 Lt Niyati Uttam Gaur (NS-22273H), 20 Feb 1987

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services under the provision of Govt. of India, Min of Def Letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 1988 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 15 Jul 2009 (Seniority from 15 Jul 2008 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing) :—

To be Lt on Probation

Rank & Name, Pers Number & Date of Birth

Lt Poonam Gupta (NS-21882A), 02 Jan 1986  
 Lt Swetha PH (NS-21883H), 07 Mar 1987  
 Lt Lakshmi Priya S (NS-21884L), 12 Feb 1985  
 Lt Sumathi C (NS-21885N), 28 Sep 1984  
 Lt V Vijayalakshmi (NS-21886W), 30 Nov 1984  
 Lt CD Sumathi (NS-21887Y), 06 Mar 1984  
 Lt Rajashree Behera (NS-21888F), 01 Sep 1984  
 Lt Beena K Babu (NS-21889K), 10 Aug 1986  
 Lt Devi C (NS-21890Y), 14 Jun 1985  
 Lt Thokchom Khilota Devi (NS-21891F), 01 Mar 1983  
 Lt Jaidevi (NS-21892K), 18 Jan 1985  
 Lt G Karunambikai (NS-21893M), 05 Aug 1986  
 Lt Priya D (NS-21894P), 10 Mar 1986  
 Lt V Saravana Eswari (NS-21895X), 22 May 1983  
 Lt Priyanka (NS-21896A), 03 Mar 1987  
 Lt Puja Sharma (NS-21897H), 15 Sep 1986  
 Lt Devi Sri TM (NS-21898L), 22 Jun 1985  
 Lt Priyanka Mehta (NS-21899N), 31 Aug 1982  
 Lt Shalu Nair (NS-21900X), 06 Jun 1986  
 Lt Nitha Susan Mathew (NS-21901A), 16 Apr 1984



Lt Mary Sobiya Suganthi A (NS-21902H), 30 Apr 1983

Lt Kirithika S (NS-21903L), 19 Aug 1986

Lt Mamta Das (NS-21904N), 04 Sep 1978

Lt Sapna Sonar (NS-21905W), 18 Jan 1983

Lt Afzal Unisa (NS-21906Y), 12 Sep 1982

Lt Jabakala KS (NS-21907F), 27 Jul 1985

Lt Aruna C (NS-21908K), 16 May 1986

Lt Angeline D Souza (NS-21909M), 22 Mar 1987

Lt Munesh Yadav (NS-21910F), 26 Jun 1987

Lt Praveena Pulluru (NS-21911K), 28 Nov 1983

Lt Revathi K (NS-21912M), 27 May 1985

Lt A Subashini (NS-21913P), 11 Feb 1986

Lt Bonita Ningombam (NS-21914X), 09 Feb 1984

Lt Athira Dinesh (NS-21915A), 16 Sep 1986

Lt Hemlata (NS-21916H), 08 Jan 1985

Lt Shridevi Balobal (NS-21917L), 03 Jul 1985

Lt Kirti Rani (NS-21918N), 17 May 1987

Lt R Amuna Evangelin (NS-21919W), 25 Aug 1986

Lt Jayasree T (NS-21920L), 07 Aug 1986

Lt Sabiyaeshwari PL (NS-21921N), 02 Jun 1986

Lt Rajni Kumari (NS-21922W), 15 Feb 1985

Lt Sushil Dhull (NS-21923Y), 17 Jun 1987

Lt Anila Mathew (NS-21924F), 12 Aug 1983

Lt Poonam (NS-21925K), 22 Oct 1986

Lt Kamla Joshi (NS-21926M), 21 Nov 1986

Lt Francis Mary Vimala Alex (NS-21927P), 29 May 1987

Lt Rajeswari G (NS-21928X), 02 Mar 1983

Lt Anandhi Rajalingam (NS-21929A), 21 May 1985

Lt Deepa N (NS-21930P), 17 Jun 1986

Lt VR Resmi (NS-21931X), 11 May 1985

Lt Manju Manmadhan (NS-21932A), 14 May 1984

Lt Anisia Augusthy (NS-21933H), 06 May 1986

Lt Pendharkar Jyotsna Yuvraj (NS-21934L), 02 Jan 1980

Lt B Jeyalakshmi (NS-21935N), 22 Jul 1986

Lt B Rajitha (NS-21936W), 27 Aug 1986

Lt Sangeetha V (NS-21937Y), 15 Sep 1983

Lt Suman Lata (NS-21938F), 23 Jan 1986

Lt Moirangthem Bina Devi (NS-21939K), 01 Jan 1985

Lt K Sangeetha (NS-21940Y), 02 Jun 1984

Lt Preeti Gill (NS-21941F), 01 Jun 1980

Lt Leelavathy M (NS-21942K), 08 Jun 1985

Lt Aradhana Viswanathan (NS-21943M), 01 May 1984

JK GREWAL

Maj Gen

Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 460, dated 15th September 2011—The President is pleased to confirm the undermentioned officers in the Short Service Commission on successful completion of probationary period of one year in terms of AI 15/79 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### (ARMY DENTAL CORPS)

#### SHORT SERVICE COMMISSION

#### CONFIRMATION

Capt Nanavati Goutam Dilip (DS-12359N), 24 Aug 2009

Capt Divya (DS-12375L), 16 Apr 2010

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

#### ARMY BRANCH

No. 461, dated 15th September 2011—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY DENTAL CORPS

#### PERMANENT COMMISSION

#### Major General to be Lt General

S Murali Mohan (DR-10295P), 23 Mar 2011 (with notional seniority from 12 Mar 2011 without effect on pay & allowances)

MAHESH CHANDER

Maj Gen

Addl DGDS

#### REGULAR ARMY

#### (PERMANENT COMMISSION)

No. 462, dated 15th September 2011—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS Officers with effect from the date(s) mentioned against each name :—

#### Colonel to Brigadier

Rank & Name, Pers No., & Date of Promotion

Brig S Ninan (NR-16173F), 28 Jan 2011

Brig J A Fernandez (NR-16352F), 28 Jan 2011

## Lt Col (Select) to Col

Rank &amp; Name, Pers No., &amp; Date of Promotion

Col Valsala L (NR-17121X), 01 Nov 2010

## Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank &amp; Name, Pers No., &amp; Date of Promotion

Lt Col SG Aleyamma (NR-17690L), 01 Dec 2009

Lt Col Sathiamma Mathew (NR-17818L), 01 Aug 2010

Lt Col Joymol John (NR-17839F), 01 Aug 2010

Lt Col Leena Kumari PR (NR-17854W), 01 Sep 2010

Lt Col Smita Devrani (NR-17858M), 01 Sep 2010

## Maj to Lt Col (TS)

Rank &amp; Name, Pers No., &amp; Date of Promotion

Lt Col Sujatha P Nair (NR-19929F), 22 Oct 2010

Lt Col Vimala VR (NR-19930W), 22 Oct 2010

Lt Col Anita Mehta (NR-19931Y), 22 Oct 2010

Lt Col Purnima Saha (NR-19932F), 22 Oct 2010

Lt Col Perike Karnamma (NR-19933K), 22 Oct 2010

Lt Col Mousumi Dutta (NR-19934M), 22 Oct 2010

Lt Col Anju Singh (NR-19935P), 22 Oct 2010

Lt Col Simi Soni (NR-19936X), 22 Oct 2010

Lt Col L Lakshmi Singh (NR-19937A), 22 Oct 2010

Lt Col Beena Varghese (NR-19938H), 22 Oct 2010

Lt Col Prameela K P (NR-19942L), 22 Oct 2010

Lt Col Sai Geetha K (NR-19944W), 22 Oct 2010

Lt Col Asha Sharma (NR-19945Y), 22 Oct 2010

Lt Col Geetha K (NR-19946F), 22 Oct 2010

Lt Col Gurmeet Kaur (NR-19947K), 22 Oct 2010

Lt Col Jyoti Dubey (NR-19948M), 22 Oct 2010

Lt Col Anuradha (NR-19950K), 22 Oct 2010

Lt Col Sarita Sharma (NR-19951M), 22 Oct 2010

Lt Col Mini Thomas (NR-19952P), 22 Oct 2010

Lt Col Sumitra Rathee (NR-19955H), 22 Oct 2010

Lt Col Neelam Mishra (NR-19956L), 22 Oct 2010

Lt Col Shaili Rastogi (NR-19958W), 22 Oct 2010

Lt Col Sudhamony L (NR-19960N), 22 Oct 2010

Lt Col Sneha Subha Palatingal (NR-19964K), 22 Oct 2010

Lt Col Bindu Aravindan (NR-19966P), 22 Oct 2010

Lt Col G Mahalakshmi (NR-19967X), 22 Oct 2010

Lt Col Babeeta Rani (NR-19968A), 22 Oct 2010

Lt Col Nidhi Bala Bhatt (NR-19969H), 22 Oct 2010

Lt Col Pathare Anita Thomas (NR-19973L), 22 Oct 2010

Lt Col Epina Mukhopadhyay (NR-19974N), 22 Oct 2010

Lt Col Sheeba Jose (NR-19975W), 22 Oct 2010

Lt Col Vandana (NR-19976Y), 22 Oct 2010

Lt Col Raj Kumari (NR-19977F), 22 Oct 2010

Lt Col Aruna Gurung (NR-19978K), 22 Oct 2010

Lt Col G Anandhi (NR-19980F), 22 Oct 2010

Lt Col Axelia Latha (NR-19982M), 22 Oct 2010

Lt Col Mahua Bhattacharya (NR-19984X), 22 Oct 2010

Lt Col Sheela K R (NR-19985A), 22 Oct 2010

Lt Col K S Preetha Kumari (NR-19987L), 22 Oct 2010

Lt Col Inderjit Kaur (NR-19988N), 22 Oct 2010

Lt Col Anupoma Mondal (NR-19991N), 22 Oct 2010

Lt Col Chandrakala R Dodaama (NR-19992W), 22 Oct 2010

Lt Col Ajita Datta Chaudhuri (NR-19993Y), 22 Oct 2010

Lt Col Chhabi Kanjilal (NR-19994F), 22 Oct 2010

Lt Col Ranjana Anthony (NR-19995K), 22 Oct 2010

Lt Col Pushpawali (NR-19996M), 22 Oct 2010

Lt Col Shampa Chatterjee (NR-19997P), 22 Oct 2010

Lt Col Saraswati Saha (NR-19998X), 22 Oct 2010

Lt Col Dalwinder Kaur (NR-20000F), 22 Oct 2010

Lt Col S Prameela (NR-20003P), 22 Oct 2010

Lt Col Pushpa Bisht (NR-20004X), 22 Oct 2010

Lt Col Kalpana Solomon (NR-20006H), 22 Oct 2010

Lt Col Nirmala Daniel (NR-20008N), 22 Oct 2010

Lt Col Sinthiya Rita B (NR-20010L), 22 Oct 2010

Lt Col Deepika Subba (NR-20011N), 22 Oct 2010

Lt Col Chaya Dey (NR-20012W), 22 Oct 2010

Lt Col Rajvinder Kaur (NR-20014F), 22 Oct 2010

Lt Col Lhaikhoting Haokip (NR-20017P), 22 Oct 2010

Lt Col Rupa Bhowmick (NR-20018X), 22 Oct 2010

Lt Col Sneh Lata Sharma (NR-20020P), 22 Oct 2010

Lt Col Nalini V (NR-20021X), 22 Oct 2010

Lt Col K M Rajashree (NR-20022A), 22 Oct 2010

Lt Col Saraswati Chakraborty (NR-20023H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Suja George (NR-20024L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Chhaya Das (NR-20027Y), 22 Oct 2010  
 Lt Col Rosemary Lepcha (NR-20028F), 22 Oct 2010  
 Lt Col Rathi TK (NR-20029K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Mamta Devi (NR-20032K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Daljit Kaur (NR-20035X), 22 Oct 2010  
 Lt Col Bipasha Mitra (NR-20036A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Snigdha Pal (NR-20037H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Shampa Roy (NR-20039N), 22 Oct 2010  
 Lt Col Pallavi Shrivastava (NR-20042N), 22 Oct 2010  
 Lt Col Renuka Toppo (NR-20043W), 22 Oct 2010  
 Lt Col Shanti Joshi (NR-20072L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Kusum Singh (NR-20073N), 22 Oct 2010  
 Lt Col Siuli Baidya Majumdar (NR-20076F), 22 Oct 2010  
 Lt Col Manisha Suryawanshi (NR-20077K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Aruna K R. (NR-20078M), 22 Oct 2010  
 Lt Col Teji Sreedhar (NR-20079P), 22 Oct 2010  
 Lt Col Mousumi Sharma (NR-20080L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Rekha Rani Gupta (NR-20081M), 22 Oct 2010  
 Lt Col V Sugirtha (NR-20084A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Meenakshi Keshav/Pathak (NR-20085H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Reji Sreedhar S (NR-20086L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Karthikeyani S (NR-20092Y), 22 Oct 2010  
 Lt Col Chitra Lekha (NR-20094K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Bibina Kundu (NR-20095M), 22 Oct 2010  
 Lt Col Beshly N Narayanan (NR-20098A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Madhu Malti (NR-20099H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Suja O P (NR-20100M), 22 Oct 2010  
 Lt Col Geetha R (NR-20102Y), 22 Oct 2010  
 Lt Col Sheela Das I (NR-20103A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Subesh R (NR-20104H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Shelmi KJ (NR-20105L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Tapasi Ray Barman (NR-20106L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Geetu Nailwal (NR-20107W), 22 Oct 2010  
 Lt Col Renuka Menon P (NR-20108Y), 22 Oct 2010  
 Lt Col Aparna Chakravorti (NR-20109F), 22 Oct 2010  
 Lt Col Sujata (NR-20110W), 22 Oct 2010

Lt Col Bishnu Priya Datta (NR-20111Y), 22 Oct 2010  
 Lt Col Kulvinder Kaur (NR-20112F), 22 Oct 2010  
 Lt Col Manju V Chettiar (NR-20117A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Thankamma Koshy (NR-20118H), 22 Oct 2010  
 Lt Col Susamma Moses (NR-20120A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Sanju Dhiman (NR-20122N), 22 Oct 2010  
 Lt Col Madhulata Gaur (NR-20124W), 22 Oct 2010  
 Lt Col Matheshwari L (NR-20128M), 22 Oct 2010  
 Lt Col Marykutty John (NR-20130K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Yamuna Devi G (NR-20134A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Manorama L (NR-20135H), 22 Oct 2010  
 Lt Col C J Biswas (NR-20136L), 22 Oct 2010  
 Lt Col Mini Thomas (NR-20141W), 22 Oct 2010  
 Lt Col Beena R Rajappan (NR-20144K), 22 Oct 2010  
 Lt Col Jaya Lakshmi H (NR-20146P), 22 Oct 2010  
 Lt Col Anitha Napoleon (NR-20148A), 22 Oct 2010  
 Lt Col Songkit Lepcha (NR-20153L), 22 Oct 2010

#### Lt to Capt

#### Rank & Name, Pers No., & Date of Promotion

Capt Siva Priya (NR-21529N), 21 Aug 2010  
 Capt Bhawana Bhardwaj (NR-21530H), 21 Aug 2010  
 Capt Meenakshi Bajwa (NR-21531L), 21 Aug 2010  
 Capt Sharbani Roy (NR-21532N), 21 Aug 2010  
 Capt Neeraj Chaudhary (NR-21533W), 21 Aug 2010  
 Capt Sandeep Kumari (NR-21534Y), 21 Aug 2010  
 Capt Vidhya P (NR-21535F), 21 Aug 2010  
 Capt Vineeta Singh (NR-21536K), 21 Aug 2010  
 Capt Kavita Gurung (NR-21537M), 21 Aug 2010  
 Capt Pompa Mukherjee (NR-21538P), 21 Aug 2010  
 Capt Saminder Malik (NR-21540M), 21 Aug 2010  
 Capt Aruna Arvindan (NR-21541P), 21 Aug 2010  
 Capt Bijaya Saha (NR-21542X), 21 Aug 2010  
 Capt Vijanti Mathwal (NR-21543A), 21 Aug 2010  
 Capt Littu Varghese (NR-21544H), 21 Aug 2010  
 Capt Nishi (NR-21545L), 21 Aug 2010  
 Capt Arzoo Vohra (NR-21546N), 21 Aug 2010  
 Capt Tanu Jadli (NR-21547W), 21 Aug 2010  
 Capt Dapplie D Wankhar (NR-21548Y), 21 Aug 2010  
 Capt Jagriti Sukhpal (NR-21549F), 21 Aug 2010

Capt Richa Rai (NR-21550W), 21 Aug 2010  
Capt Teena Dash (NR-21551Y), 21 Aug 2010  
Capt Maya Nair (NR-21552F), 21 Aug 2010  
Capt Poonam Kashyap (NR-21553K), 21 Aug 2010  
Capt Kabita Das (NR-21554M), 21 Aug 2010  
Capt M Priya (NR-21555P), 21 Aug 2010  
Capt Anita Nair Ashokan (NR-21556X), 21 Aug 2010  
Capt Arshi Sultana (NR-21634K), 21 Aug 2010  
Capt Renuka Dalal (NR-21635M), 21 Aug 2010  
Capt Kalpana Kanwar (NR-21439M), 25 Aug 2010  
Capt Kiran Singh (NR-21440F), 25 Aug 2010  
Capt Anuradha Gaur (NR-21441K), 25 Aug 2010  
Capt Akanksha Sharma (NR-21442M), 25 Aug 2010  
Capt Anu Sharma (NR-21443P), 25 Aug 2010  
Capt Lalita Alriya (NR-21444X), 25 Aug 2010  
Capt Mousumi Pramanick (NR-21445A), 25 Aug 2010  
Capt Jatinder Kaur (NR-21446H), 25 Aug 2010  
Capt Remi Michael (NR-21447L), 25 Aug 2010  
Capt Nisa Philip (NR-21448N), 25 Aug 2010  
Capt Kavya Balu (NR-21449W), 25 Aug 2010  
Capt Sumitha G (NR-21450L), 25 Aug 2010  
Capt Deepa Dabas (NR-21451N), 25 Aug 2010  
Capt Shalini (NR-21452N), 25 Aug 2010  
Capt Geeta Kumari Chahar (NR-21453Y), 25 Aug 2010  
Capt Jinu John (NR-21454F), 25 Aug 2010  
Capt Pooja Dukare (NR-21455K), 25 Aug 2010  
Capt Saminder Kaur (NR-21456M), 25 Aug 2010  
Capt Ashu Rana (NR-21457P), 25 Aug 2010  
Capt Anita Semwal (NR-21458X), 25 Aug 2010  
Capt Seeja Kurup (NR-21459A), 25 Aug 2010  
Capt Rajani Bhatt (NR-21460P), 25 Aug 2010  
Capt S Sheetal Mudaliar (NR-21461X), 25 Aug 2010  
Capt Manisha (NR-21462A), 25 Aug 2010  
Capt Leena Tamang (NR-21463H), 25 Aug 2010  
Capt Neetu Kumari (NR-21464L), 25 Aug 2010  
Capt Shikha K (NR-21465N), 25 Aug 2010  
Capt Manhau Niang (NR-21466W), 25 Aug 2010  
Capt Arundhati (NR-21467Y), 25 Aug 2010  
Capt Mary Johnson K (NR-21468F), 25 Aug 2010

Capt Pragati Nigam (NR-21470Y), 25 Aug 2010  
Capt Divya P (NR-21471F), 25 Aug 2010  
Capt Radhika PV (NR-21472K), 25 Aug 2010  
Capt Pooja Rai (NR-21473M), 25 Aug 2010  
Capt Padam Ragini (NR-21474P), 25 Aug 2010  
Capt Satwinderjit Kaur (NR-21475X), 25 Aug 2010  
Capt Reena Kumari (NR-21476A), 25 Aug 2010  
Capt Shikha Gupta (NR-21478L), 25 Aug 2010  
Capt Sonia Tripathi (NR-21479N), 25 Aug 2010  
Capt Vandana Kumari (NR-21480H), 25 Aug 2010  
Capt Ritu Rai (NR-21482N), 25 Aug 2010  
Capt Seema Kapse (NR-21483W), 25 Aug 2010  
Capt Jisha B (NR-21484Y), 25 Aug 2010  
Capt Sweta Sharma (NR-21485F), 25 Aug 2010  
Capt Susy Anand (NR-21486K), 25 Aug 2010  
Capt Katyani (NR-21487M), 25 Aug 2010  
Capt Rakhi (NR-21488P), 25 Aug 2010  
Capt Ritu Dagur (NR-21489X), 25 Aug 2010  
Capt Soniya Parveen (NR-21490M), 25 Aug 2010  
Capt Indulekha KA (NR-21492X), 25 Aug 2010  
Capt Kunnath Jose (NR-21494H), 25 Aug 2010  
Capt Arpana Pinky (NR-21495L), 25 Aug 2010  
Capt Bharti Devi (NR-21498Y), 25 Aug 2010  
Capt Pushpa Kumari (NR-21499F), 25 Aug 2010  
Capt Nirupama Sirswal (NR-21500L), 25 Aug 2010  
Capt Seema Rajput (NR-21502W), 25 Aug 2010  
Capt Pamil Yadav (NR-21503Y), 25 Aug 2010  
Capt Sarita Singh (NR-21504F), 25 Aug 2010  
Capt Jyotsna Singh (NR-21506M), 25 Aug 2010  
Capt Rashmi Rana (NR-21508X), 25 Aug 2010  
Capt Priyanka S (NR-21510P), 25 Aug 2010  
Capt Dhanya Balachandran (NR-21511X), 25 Aug 2010  
Capt Nilima Dey (NR-21512A), 25 Aug 2010  
Capt Shipra Singh (NR-21513H), 25 Aug 2010  
Capt Amita Mishra (NR-21514L), 25 Aug 2010  
Capt Suparana Singha (NR-21515N), 25 Aug 2010  
Capt Maninder Kaur (NR-21516W), 25 Aug 2010  
Capt Kanchan (NR-21517Y), 25 Aug 2010  
Capt Sangeeta Yadav (NR-21518F), 25 Aug 2010

Capt Louis Lynette Thomas (NR-21519K), 25 Aug 2010	Capt G Ashwathi Raghavan (NR-21590X), 22 Oct 2010
Capt Navjeet Kaur (NR-21520Y), 25 Aug 2010	Capt K J Divya (NR-21591A), 22 Oct 2010
Capt Pretty George (NR-21521F), 25 Aug 2010	Capt Nidhi Srivastava (NR-21592H), 22 Oct 2010
Capt Greeshma Varghese (NR-21522K), 25 Aug 2010	Capt Suman Gupta (NR-21593L), 22 Oct 2010
Capt Ashwini (NR-21523H), 25 Aug 2010	Capt Raksha Sharma (NR-21594N), 22 Oct 2010
Capt Meenakshi Pareek (NR-21524P), 25 Aug 2010	Capt Kondeti Suneetha Sundari (NR-21595W), 22 Oct 2010
Capt Kiran (NR-21557A), 22 Oct 2010	Capt Kavita Joshi (NR-21596Y), 22 Oct 2010
Capt Soni Rawat (NR-21558H), 22 Oct 2010	Capt Shalini (NR-21597F), 22 Oct 2010
Capt Deep Lata Kumari (NR-21559L), 22 Oct 2010	Capt Simranjeet Kaur (NR-21598K), 22 Oct 2010
Capt Shilpi Mankotia (NR-21560A), 22 Oct 2010	Capt Anita Singh (NR-21599M), 22 Oct 2010
Capt N Shobhana (NR-21561H), 22 Oct 2010	Capt Tanuja Kumari (NR-21600W), 22 Oct 2010
Capt Sumita (NR-21562L), 22 Oct 2010	Capt Gauri Thapa (NR-21601Y), 22 Oct 2010
Capt Anita Rai (NR-21563N), 22 Oct 2010	Capt Susanna C Issac (NR-21602F), 22 Oct 2010
Capt V Rajitha Kumari (NR-21564W), 22 Oct 2010	Capt Pooja Upadhyaya (NR-21603K), 22 Oct 2010
Capt Harpreet Kaur (NR-21565Y), 22 Oct 2010	Capt Rekha Kumari (NR-21604M), 22 Oct 2010
Capt Sonia Raj (NR-21566F), 22 Oct 2010	Capt Rachna Aggarwal (NR-21605P), 22 Oct 2010
Capt Meenakshi Yadav (NR-21567K), 22 Oct 2010	Capt Subhkamna Thapa (NR-21606X), 22 Oct 2010
Capt Triputti Sharma (NR-21568M), 22 Oct 2010	Capt Prerna Shukla (NR-21607A), 22 Oct 2010
Capt Manisha Verma (NR-21569P), 22 Oct 2010	Capt Liji George (NR-21608H), 22 Oct 2010
Capt Sumam T Mathew (NR-21570K), 22 Oct 2010	Capt Nirmala Bhakuni (NR-21609L), 22 Oct 2010
Capt Radhika T R (NR-21571M), 22 Oct 2010	Capt Pushpalata (NR-21610A), 22 Oct 2010
Capt Kalpana Rawat (NR-21573X), 22 Oct 2010	Capt S C Suranya (NR-21611H), 22 Oct 2010
Capt Shobha Dubey (NR-21574A), 22 Oct 2010	Capt Divya S Nair (NR-21612L), 22 Oct 2010
Capt Babita Bharadwaj (NR-21575H), 22 Oct 2010	Capt Chithira Babu (NR-21613N), 22 Oct 2010
Capt B Ushashree (NR-21576L), 22 Oct 2010	Capt ABI Jose (NR-21614W), 22 Oct 2010
Capt Simi Babu (NR-21577N), 22 Oct 2010	Capt Sudha Tamang (NR-21615Y), 22 Oct 2010
Capt Nirmali Chaliha (NR-21578W), 22 Oct 2010	Capt Suman Sekhawat (NR-21616F), 22 Oct 2010
Capt Dhanyamol K D (NR-21579Y), 22 Oct 2010	Capt Rony K T (NR-21617K), 22 Oct 2010
Capt Archana Rawat (NR-21580N), 22 Oct 2010	Capt Mohita Sambyal (NR-21618M), 22 Oct 2010
Capt Sandhya G Nair (NR-21581W), 22 Oct 2010	Capt Smita Sahoo (NR-21619P), 22 Oct 2010
Capt Priyadarshini B (NR-21582Y), 22 Oct 2010	Capt Anuradha Chhetri (NR-21620K), 22 Oct 2010
Capt Anupama Jaiswal (NR-21583F), 22 Oct 2010	Capt Chandrakanta Sharma (NR-21621M), 22 Oct 2010
Capt Radha (NR-21584K), 22 Oct 2010	Capt Madhumita Das (NR-21622P), 22 Oct 2010
Capt Sarita Sharma (NR-21585M), 22 Oct 2010	Capt Jatinder Kaur (NR-21623X), 22 Oct 2010
Capt Pansare Vaishali Shantaram (NR-21586P), 22 Oct 2010	Capt Deepa K R (NR-21624A), 22 Oct 2010
Capt Anju Chauhan (NR-21587X), 22 Oct 2010	Capt Sanghamitra Chauhan (NR-21625H), 22 Oct 2010
Capt Monita Sharma (NR-21588A), 22 Oct 2010	Capt Anita (NR-21626L), 22 Oct 2010
Capt Indu George (NR-21589H), 22 Oct 2010	Capt Lata Sundrial (NR-21627N), 22 Oct 2010

Capt Devikrishna KI (NR-21628W), 22 Oct 2010  
Capt Serah Mathai (NR-21629Y), 22 Oct 2010  
Capt Bobin Joseph (NR-21630N), 22 Oct 2010  
Capt Priyanka V M (NR-21631W), 22 Oct 2010  
Capt Roopam Singh (NR-21632Y), 22 Oct 2010  
Capt Anju S V (NR-21633F), 22 Oct 2010  
Capt Nilima Khatun (NR-21638A), 22 Oct 2010  
Capt Anu Bala (NR-21639H), 22 Oct 2010  
Capt Ugu Libang (NR-21640X), 22 Oct 2010  
Capt Kalavati Meena (NR-21641A), 22 Oct 2010  
Capt Neetu Rathore (NR-21642H), 22 Oct 2010  
Capt Devi Priya (NR-21643L), 22 Oct 2010  
Capt Divya Sharma (NR-21644N), 22 Oct 2010  
Capt Meenakshi Jangra (NR-21645W), 22 Oct 2010  
Capt Bincy Kuriakose (NR-21646Y), 22 Oct 2010  
Capt Shalu Chauhan (NR-21647F), 22 Oct 2010  
Capt Beena S Babu (NR-21648K), 22 Oct 2010  
Capt Shashi Kala (NR-21649M), 22 Oct 2010  
Capt Nithya R (NR-21650F), 22 Oct 2010  
Capt Rita Rani Singh (NR-21651K), 22 Oct 2010  
Capt Manju Narayanan (NR-21652M), 22 Oct 2010  
Capt Sheeja Chacko (NR-21653P), 22 Oct 2010  
Capt Jyotsana Shubhra (NR-21654X), 22 Oct 2010  
Capt Savitha P (NR-21655H), 22 Oct 2010  
Capt Deepika Chamoli (NR-21656H), 22 Oct 2010  
Capt Neethu George (NR-21657L), 22 Oct 2010  
Capt Chaithanya S K (NR-21658N), 22 Oct 2010  
Capt Pratima Kashyap (NR-21659W), 22 Oct 2010  
Capt Sushma Kumari (NR-21660L), 22 Oct 2010  
Capt Saranya (NR-21661N), 22 Oct 2010  
Capt Manoreshmi T M (NR-21662W), 22 Oct 2010  
Capt K Sushma Ahirwar (NR-21663Y), 22 Oct 2010  
Capt Remya P (NR-21664F), 22 Oct 2010  
Capt Angel Rose (NR-21665K), 22 Oct 2010  
Capt Meenakshi N (NR-21666M), 22 Oct 2010  
Capt Aparna Sinha (NR-21667P), 22 Oct 2010  
Capt Jyoti Pant (NR-21668X), 22 Oct 2010  
Capt Teena Joan (NR-21669A), 22 Oct 2010  
Capt Kavitha R Kumar (NR-21670P), 22 Oct 2010

Capt J Merlin Immachulate (NR-21671X), 22 Oct 2010  
Capt Jaishree Nair (NR-21672A), 22 Oct 2010  
Capt Jeevanthika P (NR-21673H), 22 Oct 2010  
Capt Pratibha Tiwari (NR-21674L), 22 Oct 2010  
Capt Reena Yadav (NR-21675N), 22 Oct 2010  
Capt Sewli D Sangma (NR-21676W), 22 Oct 2010  
Capt Rehana Das (NR-21677Y), 22 Oct 2010  
Capt Sushma Kumari (NR-21678F), 22 Oct 2010  
Capt Shabana PP (NR-21679K), 22 Oct 2010  
Capt Richa Rawat (NR-21680Y), 22 Oct 2010  
Capt Puja Gautam (NR-21681F), 22 Oct 2010  
Capt Aswathi Chandran (NR-21682K), 22 Oct 2010  
Capt Meena Rajan (NR-21683M), 22 Oct 2010  
Capt Anupa Devi Kairy (NR-21684P), 22 Oct 2010  
Capt Vibha Sharma (NR-21685X), 22 Oct 2010  
Capt Megha Rawat (NR-21686A), 22 Oct 2010  
Capt Namneet Kaur (NR-21687H), 22 Oct 2010  
Capt Kamlesh Malkani (NR-21688L), 22 Oct 2010  
Capt Arya S Rajan (NR-21689N), 22 Oct 2010  
Capt Rinki Sachan (NR-21690H), 22 Oct 2010  
Capt Sangeetha K M (NR-21691L), 22 Oct 2010  
Capt Sweety Kumari (NR-21692N), 22 Oct 2010  
Capt Sucheta Prasad (NR-21693W), 22 Oct 2010  
Capt Amaninder Kaur (NR-21694Y), 22 Oct 2010  
Capt Meenakshi Bhandari (NR-21695F), 22 Oct 2010  
Capt Megha Bisht (NR-21696K), 22 Oct 2010  
Capt Amegha C V (NR-21697M), 22 Oct 2010  
Capt Hansi Pathak (NR-21698P), 22 Oct 2010  
Capt Nabanita Mittra (NR-21699X), 22 Oct 2010  
Capt Deepika (NR-21700F), 22 Oct 2010  
Capt Namrata Kriplani (NR-21701K), 22 Oct 2010  
Capt Poonam Singh (NR-21702M), 22 Oct 2010  
Capt Jisha Johnson (NR-21703P), 22 Oct 2010  
Capt Janki Bhatt (NR-21704X), 22 Oct 2010  
Capt Anita Dass (NR-21705A), 22 Oct 2010  
Capt Arjita Raturi (NR-21706H), 22 Oct 2010  
Capt Meenakashi Mohal (NR-21707L), 22 Oct 2010  
Capt Primvada Chaubey (NR-21708N), 22 Oct 2010  
Capt Tamanna (NR-21709W), 22 Oct 2010

Capt Lucy Anima Tirkey (NR-21710L), 22 Oct 2010  
 Capt Sunita Kushwaha (NR-21711N), 22 Oct 2010  
 Capt Ruchika Sharma (NR-21712W), 22 Oct 2010  
 Capt Meena Sharma (NR-21713Y), 22 Oct 2010  
 Capt Sapna Riyal (NR-21714F), 22 Oct 2010  
 Capt Soubhagya K M (NR-21715K), 22 Oct 2010  
 Capt Geemol John (NR-21716M), 22 Oct 2010  
 Capt Mousumi Das (NR-21717P), 22 Oct 2010  
 Capt Sindhu P K (NR-21718X), 22 Oct 2010  
 Capt Sushmita Chakravarthy (NR-21719A), 22 Oct 2010  
 Capt G Sundari (NS-21720P), 22 Oct 2010  
 Capt A Grace Gnana Margret (NS-21722A), 22 Oct 2010  
 Capt Kalpana Pathak (NS-21723H), 22 Oct 2010  
 Capt Kirthi Maan (NS-21724L), 22 Oct 2010  
 Capt Neerja Kerketta (NS-21726W), 22 Oct 2010  
 Capt Seema Jakhar (NS-21727Y), 22 Oct 2010  
 Capt S Sarala (NS-21729K), 22 Oct 2010  
 Capt Thenmozhi J (NS-21730Y), 22 Oct 2010  
 Capt Vigneshwari B (NS-21731F), 22 Oct 2010  
 Capt Lekshmi K S (NS-21732K), 22 Oct 2010  
 Capt Rumi Neog Saikia (NS-21733M), 22 Oct 2010  
 Capt Deep Shikha Khadse (NS-21734P), 22 Oct 2010  
 Capt M Muppidadhiammal (NS-21735X), 22 Oct 2010  
 Capt Sudha S (NS-21736A), 22 Oct 2010  
 Capt Shalu Verma (NS-21737H), 22 Oct 2010  
 Capt Shreedevi Biradar (NS-21738L), 22 Oct 2010  
 Capt D Sony Jenifer (NS-21739N), 22 Oct 2010  
 Capt Jayanthi (NS-21740H), 22 Oct 2010  
 Capt Priya S (NS-21741L), 22 Oct 2010  
 Capt Leena Dhamgaye (NS-21742N), 22 Oct 2010  
 Capt Aruna Biradar (NS-21743W), 22 Oct 2010  
 Capt Vishvabharti (NS-21744Y), 22 Oct 2010  
 Capt Jagdeshwari D (NS-21745F), 22 Oct 2010  
 Capt Nisha S (NS-21746K), 22 Oct 2010  
 Capt Lavanya K (NS-21747M), 22 Oct 2010  
 Capt K Vidhya (NS-21748P), 22 Oct 2010  
 Capt Arjita (NR-21749X), 22 Oct 2010  
 Capt Naveena Dabas (NR-21750M), 22 Oct 2010  
 Capt Anjana Kumeri (NR-21751P), 22 Oct 2010

Capt Nupur Sachdeva (NR-21752X), 22 Oct 2010  
 Capt Nisha Singh (NR-21753A), 22 Oct 2010  
 Capt Tanushree Mitra (NR-21754H), 22 Oct 2010  
 Capt B Roshini (NR-21755L), 22 Oct 2010  
 Capt Anu Zacharia (NR-21756N), 22 Oct 2010  
 Capt Radhika Das (NR-21757W), 22 Oct 2010  
 Capt Shweta Dahiya (NR-21758Y), 22 Oct 2010  
 Capt Krishna Bist (NR-21759F), 22 Oct 2010  
 Capt Kavita Rajwar (NR-21760W), 22 Oct 2010  
 Capt Aswathy Vijayan (NR-21761Y), 22 Oct 2010  
 Capt Brinda P (NR-21762F), 22 Oct 2010  
 Capt Deepika Shekhawat (NR-21763K), 22 Oct 2010  
 Capt G Geethu (NR-21764M), 22 Oct 2010  
 Capt Lilly Samanta (NR-21765P), 22 Oct 2010  
 Capt Sangeetha Philip (NR-21766X), 22 Oct 2010  
 Capt Jyoti Saha (NR-21767A), 22 Oct 2010  
 Capt Anju Sudersan K (NR-21768H), 22 Oct 2010  
 Capt Renjini G Krishanan (NR-21769L), 22 Oct 2010  
 Capt Arpita Chakraborty (NR-21770A), 22 Oct 2010  
 Capt Hima John (NR-21771H), 22 Oct 2010  
 Capt Tungnung C (NR-21772L), 22 Oct 2010  
 Capt Suman Rawat (NR-21773N), 22 Oct 2010  
 Capt Sneha Yadav (NR-21774W), 22 Oct 2010  
 Capt Priyamvada J (NR-21775Y), 22 Oct 2010

J K GREWAL  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 463, dated 16th September 2011—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

(IC-66179) Raj Singh, AC

(IC-66180) Ashish Agarwal, Mech Inf

(IC-66181) Rakesh Yadav, Inf

(IC-66182) Syed Mohammed Arif, ASC

(IC-66183) Ravinder Singh, Inf

(IC-66184) Tejendra Singh Shaktawat, Inf	(IC-66234) Nikhil Wagh, Inf
(IC-66185) Mahesh Bellad, Inf	(IC-66235) Shailendra Singh, Inf
(IC-66186) Samrat Kaushal, Arty	(IC-66236) Ranjan Kr Jha, Arty
(IC-66187) Saurabh Diddi, Inf	(IC-66237) Manmeet Singh Lakha, Mech Inf
(IC-66188) Bhagat Akshay Suresh, Inf	(IC-66238) Anantha Raju R P, Inf
(IC-66189) Harsh Vardhan Singh, Inf	(IC-66239) Bhartendu Rawat, Inf
(IC-66192) Rohitkumar Ashok Patil, Inf	(IC-66241) Jaivardhan Singh, Inf
(IC-66193) Biren Parangden, Inf	(IC-66242) Ravish Kumar Singh, Arty
(IC-66195) Himmat Singh, AC	(IC-66243) Abhay Bisht, Mech Inf
(IC-66198) Ravi Kant, Arty	(IC-66245) Amit Dwivedi, Inf
(IC-66199) Barun Singha, Arty	(IC-66248) Kunwar Saurabh Singh Bist, Inf
(IC-66200) Mirza Zahid Baig, Inf	(IC-66249) Gopal Mehra, Inf
(IC-66201) Sunil Yadav, Inf	(IC-66250) Bickram Singh Sidhu, AOC
(IC-66202) Lokhande Parag Krishnarao, Arty	(IC-66251) Naresh Kumar Rana Rajput, Arty
(IC-66203) Jithesh B, Inf	(IC-66254) Shubhashish Mazumdar, Arty
(IC-66204) Ranade Charudatta Jayant, Inf	(IC-66256) Manish Singh, Arty
(IC-66205) Vijayendra Pratap Singh, Int	(IC-66257) Amit Bora, Inf
(IC-66207) Satish Chandra Lakhera, Inf	(IC-66258) Jaipal Singh, Inf
(IC-66209) Damle Abhijeet Rajanikant, Inf	(IC-66260) Shobhit Dogra, Inf
(IC-66210) Rohit S Shekhawat, Inf	(IC-66263) Sahil Thakur, Inf
(IC-66211) Puneet Malhotra, Inf	(IC-66264) Gurvinder Singh, Inf
(IC-66212) Mohan Rao, Inf	(IC-66265) Harjit Singh, Arty
(IC-66213) Rohit Sharma, Inf	(IC-66266) Arun K, Inf
(IC-66215) Kapil Rai, Inf	(IC-66268) Manish Singh, Inf
(IC-66216) Rahesh B Kurup, Inf	(IC-66269) Varun Kumar, Arty
(IC-66219) Vijayant Bist, Inf	(IC-66270) Milind Sharma, Arty
(IC-66220) Praveen, AOC	(IC-66271) Bhawani Singh Ranawat, Mech Inf
(IC-66221) Nitin Rana, Inf	(IC-66272) Naresh Chandra Tewari, Inf
(IC-66222) Aman Amrik Singh, ASC	(IC-66273) Ateet Hansen, Inf
(IC-66223) Sreenivasulu K, Inf	(IC-66274) Vikas Dubey, Inf
(IC-66224) Kazi Nihal Isamuddin, Mech Inf	(IC-66275) Kachare Harshpal Vasudev, Inf
(IC-66225) N Toshi, Inf	(IC-66280) Siddharth Saxena, AC
(IC-66226) Chakkanatu Shibu John, Inf	(IC-66281) Cianto K, Arty
(IC-66227) Vivek H Sahay, Arty	(IC-66282) Dhyanchand Rajkumar, Arty
(IC-66229) Manoj Kumar Tiwari, Arty	(IC-66284) Sandeep Kumar Singh, Inf
(IC-66230) Raghavender Singh, ASC	(IC-66288) Himmat Singh Sangha, Inf
(IC-66231) Jitender Singh Shakawat, Inf	(IC-66291) Vikrant Kumar Zalte, Inf
(IC-66232) Ghatge Ramesh Udaysinh, Inf	(IC-66293) Anil Pun, Mech Inf
(IC-66233) Patil Arjun Suresh, AC	(IC-66294) Sarbjeet Singh, Arty



(IC-66295) Parichay Arora, AC  
 (IC-66296) Trivender Singh Rathore, Inf  
 (IC-66297) Somenath Roy, Arty  
 (IC-66298) Aman Kumar, Mech Inf  
 (IC-66300) Pukhrambam Herojit Singh, Inf  
 (IC-66302) Rajat Sharma, Arty  
 (IC-66304) Atom Kiran Kumar Singh, Inf  
 (IC-66305) Irengbam Jayantakumar Singh, Arty  
 (IC-66306) Maneesh Dadheech, AC  
 (IC-66308) Abhishek Prakash, AAD  
 (IC-66310) Abhishek Singhal, Inf  
 (IC-66311) Bharat Singh Chauhan, AC  
 (IC-66312) Maneesh Sirohi, Inf  
 (IC-66314) Sunandan Nandy, Arty  
 (IC-66316) Godbole Ashish Vishwanath, Arty  
 (IC-66317) Ashiq Rishabh, Mech Inf

—17 Apr 2011

#### SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Maj

SS No., Name, Arm, DOS, Course, Revised date of seniority for promotion and Subs Maj wef

(SS-40880) Neeraj Kumar, Mech Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40883) Thaiba Simon, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40885) Badri Datt, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40886) Kirti Dhawaj Singh Shaktawat, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40902) Vivek Kumar Jha, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40913) Ray Rijitevan Debabrata, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40919) Charenamai Moses, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40939) Lendinokdang, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40963) Sundeep Salwan, ASC, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40969) H N Suanlian, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40972) Uma Shankar Adhupiya, Mech Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40973) Chanambam Suhikanta Singh, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40980) Konjengbam Rajesh Banta Singh, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40981) Rajat Vyas, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40993) Gajender Singh Chhikara, AAD, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-40999) K Dhirendra Singh Karamsot, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41001) Umesh Chandra G Bajantri, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41011) Avinash Shukla, AAD, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41028) Aditya Patil, AC, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41029) Aheibam Cha Cassay, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41030) Ashok Kumar Yadav, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41031) Devdutt Sharma, AOC, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41037) Nishith Chaturvedi, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41040) Anurag Chaturvedi, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41041) Thongam Zeevango Singh, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41047) Hemanth Bhanu Machani, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41048) Asif Ahmed K, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41052) Sungavarapu Nagesh, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41062) Neeraj Choudhary, Arty, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41066) Sameer Singh, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41075) Abhay Sharma, Mech, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41077) Anand Tandon, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41091) Yogender Nath Sharma, Inf, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-41093) Rahul Soni, JAG, 17 Sep 2004, SSC-78 (NT), 17 Apr 2005/17Apr 2011

(SS-42378) Hrishikesh Mohan Patil, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42379) Samrat Vashisht, AAD, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42385) Vijay Manikandan Vaiyapuri, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42386) Madhusudan Guru, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42388) Pradeep Jayaraman, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42394) Tagunde Kunal Pundlik, Engrs, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42397) Sandeep Kumar Singh, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42407) Salvi Samir Satish, Sigs, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42408) Josheph John Plammoottil, Engrs, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

(SS-42409) Amarnath P, EME, 20 Mar 2005, SSC-26 (T), 20 Apr 2005/20Apr 2011

PRABHAT ROSS  
Dy Dir  
MS-8C

#### ARMY BRANCH

No. 464, dated 16th September 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officer with effect from the date mentioned against him/her :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Sqn Ldr

Gaurav Attri (MS-14928P/AF-27681S), (MR-09137N), AMC, 27 Dec 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 06 Nov 2010 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Amrita Parmar (MS-14927M/AF-27679A), (MR-09146P), AMC, 27 Dec 2009

(MoD Notification published in Gazette of India dated 06 Nov 2010 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

To be Capt

Beenal Dhooria (MR-09039N), 10 Feb 2011

Ritwik Mishra (MR-09032K), 10 Feb 2011

Vidushi Joshi (MR-09025N), 10 Feb 2011

Manjit Singh Ahlawat (MR-09022A), 10 Feb 2011

Nikita Sharma (MR-09001K), 10 Feb 2011

Pawan Kumar Padhy (MR-09028F), 10 Feb 2011

Ankur Nigam (MR-09026W), 10 Feb 2011

Shilpa Bajpai (MR-09021X), 10 Feb 2011

Akshay Kumar (MR-08994F), 10 Feb 2011

Shatabdi Chakraborty (MR-08985A), 10 Feb 2011

Anubhav Singh (MR-09027Y), 10 Feb 2011

Sanjeev Malik (MR-09017P), 10 Feb 2011

Ritesh Acharya (MR-08999A), 10 Feb 2011

Rahul Goel (MR-08996M), 10 Feb 2011

To be Flt Lt

Dheeraj Yadav (MS-15409Y/AF-28874G), (MR-09133X), AMC, 01 Sep 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Amrita Parmar (MS-14927M/AF-27679A), (MR-09146P), AMC, 27 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 05 Jul 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Gaurav Attri (MS-14928P/AF-27681S), (MR-09137N), AMC, 27 Dec 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt

Surg Lt Swati Garg (MR-08927W) (76035F), AMC, 10 Aug 2010

Surg Lt Lanka Sriharsha (MR-08862N) (75994N), AMC, 11 Feb 2010

YASH PANDE  
Brig  
Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 465, dated 16 Sep 2011—The President is pleased to make the following promotions :

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion & Date of grant of Subs rank of Capt

(SS-43185) Ajay Bahadur Singh Sidhu, AC, 20 Sep 2008, SSC-86 (NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43189) Gaikwad Avinash Bharat, EME, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43204) Arun Sisodai, AAD, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43206) Neeraj Nandal, Arty, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43208) Mridupaban Bora, Inf, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43210) Sanjay Singh Yadav, Sigs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43224) Sachin Pandurang More, Engrs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43225) Aiyappa K A, Inf, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43238) Rohit Kanta, Engrs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43241) Sumit Nainiwal, Mec, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43247) Navin Kumar, Sigs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43252) Akshat Srivastava, Sigs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43268) Shetty Roshan Panduranga, Arty, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43269) Bharat Singh Bisht, Sigs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43270) Sandeep Pandey, Sigs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-4374) Akhand Pratap Singh, Arty, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43200) Avnish Sharma, Engrs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43310) Bhanoo Pathak, Inf, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43313) Dinesh Singh Chib, Engrs, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43314) Rajkumar UV, Arty, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

(SS-43321) Pavnoor Singh, AC, 20 Sep 2008, SSC-86(NT), 20 Apr 2009/20 Apr 2011

No. 466, dated 19 Sep 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

# REGULAR ARMY

## CORPS OF ENGINEERS

### Madras Engineer Group

#### To be Subs Sub Maj Clk (SD)

#### Rank, Name, JC No. & Date of Substantive Promotion

Sub Clk (SD) Pavithran Milapraavan (JC-306211X), 13 May 2010

Sub Clk (SD) Harpal Singh (JC-307805H), 03 Mar 2011

Sub Clk (SD) Virender Kumar Swakar (JC-307364N), 03 Jan 2011

Sub Clk (SD) Baskar B (JC-305642X), 07 Jan 2011

Sub Clk (SD) Sathya Narayanan K (JC-306173M), 10 Feb 2011

Sub Clk (SD) Raj Kumar Singh (JC-30624W), 13 Apr 2011

Sub Clk (SD) James Eugene Stanley (JC-306290X), 01 Jan 2011

Sub Clk (SD) Raj Kumar Desai (JC-306264K), 17 Feb 2011

Sub Clk (SD) K Jaya Kumar (JC-306342H), 21 Feb 2011

Sub Clk (SD) J Ramaraj (JC-306627P), 04 Apr 2011

Sub Clk (SD) Bhupender Singh (JC-306836M), 02 Feb 2011

Sub Clk (SD) R Sakthivel (JC-307042N), 04 May 2011

Sub Clk (SD) S Pazhaniyappan (JC-307045F), 01 Apr 2011

Sub Clk (SD) Rajkumar S (JC-307046K), 02 Apr 2011

Sub Clk (SD) Manohar Lal (JC-306146P), 02 May 2011

Sub Clk (SD) Chhotekhan (JC-307169W), 02 May 2011

Sub Clk (SD) Randhir Yadav (JC-307171N), 02 May 2011

Sub Clk (SD) Chandicharan Das (JC-307212M), 02 May 2011

Sub Clk (SD) Gunasekaran K (JC-307269F), 18 May 2011

Sub Clk (SD) Eswara Murthy (JC-307333N), 02 May 2011

Sub Clk (SD) Deen Dayal (JC-307337K), 02 May 2011

#### To be Subs Sub Clks (SD)

Nb Sub Clk (SD) Mohan Singh (JC-308339F), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Sunil Kumar Singh (JC-308341Y), 01 Jan 2011

Prabhat Ross  
My Dir  
AMS 8C

Nb Sub Clk (SD) Peketi V Sivanarayana (JC-308347A), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Vasudev (JC-308348H), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Raj Kishore Sahoo (JC-308349L), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Suresh Kumar Singh (JC-308350A), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Shankar Singh (JC-308351H), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Gurdass Chand (JC-308352L), 01 Jan 2011

Nb Sub Clk (SD) Bhirgu Vishwakarma (JC-308353N), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Padmendra Singh Bisht (JC-308376P), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Dilip Roy (JC-308377X), 05 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Jyotish Kumar Mahanta (JC-308378A), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Rohtas Singh (JC-308379H), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Sutar Vidyanandhya Mahadev (JC-308380X), 01 Feb 2011

Nb Sub Clk (SD) Dayanand Saini (JC-308381A), 01 May 2011

Nb Sub Clk (SD) Nirmal Barkya Tolya (JC-308109N), 01 May 2011

Nb Sub Clk (SD) Raksh Paul Singh (JC-308400A), 02 May 2011

Nb Sub Clk (SD) Pravash Rajan Panda (JC-308401H), 01 May 2011

Nb Sub Clk (SD) Radhakrushna T (JC-308402L), 02 May 2011

#### To be Subs Sub SKsT

Nb Sub SKT Bhoopal Singh (308167X), 05 Apr 2011

Nb Sub SKT Vemulapalli Suryaprakash Rao (JC-308831P), 01 Apr 2011

#### To be Sub

Rank/Trade, Name, JC No., Date of substantive promotion & Date of seniority without effect on pay and allces

Sub (GD) Tunuguntla N Lakshmana Murty (JC-306863W), 08 Mar 2011/01 Mar 2011

Sub (GD) Sibichan KS (JC-306918P), 07 May 2011/01 May 2011

#### To be Subs Sub (GD)

Nb Sub (GD) Sree Rangadasan P (JC-308845M), 20 Jun 2010/01 Jun 2010

Nb Sub (GD) Sasikumar P (JC-308949N), 01 Jun 2011/01 Nov 2011

Nb Sub (GD) C Santhan (JC-309385H), 01 Feb 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Semthilvel S (JC-309055K), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) J Kumar (JC-309160A), 03 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Kamal Singh (JC-309089X), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Madappa PC (JC-309091P), 31 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Mangalanandan TB (JC-309092X), 01 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) Japdeo Barla (JC-309094H), 11 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) D Anil Kumar (JC-309099F), 31 Jan 2011/01 Jan 2011

Nb Sub (GD) R Jayaprasada Rao (JC-309107P), 16 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Ponnappa PC (JC-309108X), 04 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Arumugam C (JC-309087M), 08 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Rajeev T S (JC-309100L), 13 Mar 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Manjunatha BC (JC-309104F), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) KP Madhu (JC-309109A), 01 Apr 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) S Habeeb Ahmed (JC-309090M), 11 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Jayson George (JC-309101N), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) B Venkata Ramanaiah (JC-309103Y), 24 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) John Dallas (JC-309088P), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) KP Nagarajan (JC-309086K), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Sulajan R (JC-309095L), 01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Dunga Vishnu Murthy (JC-309096N),  
01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Thiruppathi M (JC-309097W), 01 Feb 2011/  
01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Dinesh Babu MP (JC-309098Y), 01 Feb  
2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Maddukuri Sudhakar (JC-309102W),  
01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Shajimon Xavier (JC-309105K),  
16 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Radhakrishnan O (JC-309106M),  
01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Matta Ramana Reddy (JC-309063H),  
01 Feb 2011/01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Tinu Joseph (JC-309112A), 05 Mar 2011/  
01 Feb 2011

Nb Sub (GD) M Senappan (JC-309059A), 01 Feb 2011/  
01 Feb 2011

Nb Sub (GD) Mohanan Pillai S (JC-309085F), 01 Mar  
2011/01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Aniyan VM (JC-309066W), 01 Mar 2011/  
01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Radhakrishnan Nair TG (JC-309070Y),  
01 Mar 2011/01 Mar 2011

Nb Sub (GD) PS Jagadisha (JC-309074P), 01 Mar 2011/  
01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Ravi M (JC-309075X), 01 Mar 2011/  
01 Mar 2011

Nb Sub (GD) K Arumugam (JC-309077H), 01 Mar 2011/  
01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Mahendran G (JC-309078L), 01 Mar 2011/  
01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Lali Gonda Basanna Gowd (JC-309079N),  
01 Mar 2011/01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Sree Kumaran Nair A (JC-309069K),  
01 Mar 2011/01 Mar 2011

Nb Sub (GD) Vishnu Hegde (JC-309081L), 01 Apr 2011/  
01 Apr 2011

Nb Sub (GD) Ussanar KC (JC-309082N), 01 Apr 2011/  
01 Apr 2011

Nb Sub (GD) J Vincent Xavier (JC-309062A), 01 Apr  
2011/01 Apr 2011

Nb Sub (GD) Chinnathambi S (JC-309065N), 01 Apr 2011/  
01 Apr 2011

Nb Sub (GD) S Chelladurai (JC-309067Y), 01 Apr 2011/01  
Apr 2011

Nb Sub (GD) Babu Gouda Patil (JC-309068F),  
11 May 2011/01 Apr 2011

Nb Sub (GD) Sivanand Shankar Bandagar (JC-309071F),  
01 Apr 2011/01 Apr 2011

Nb Sub (GD) A Ezhilarasan (JC-309072K), 01 Apr 2011/  
01 Apr 2011

Nb Sub (GD) Bala Sundram D (JC-309110P), 01 Apr 2011/  
01 Apr 2011

Nb Sub (GD) Babu D (JC-309138P), 01 May 2011/  
01 May 2011

#### To be Subs Sub Maj Clk (SD)

Rank/Trade, Name, JC No. & Date of Substantive Promotion

Sub Clk (SD) Kaliya Perumal N (JC-306335M), 04 May  
2010

Sub Clk (SD) Raveendran Pillai B (JC-306313N),  
01 Jun 2010

Sub Clk (SD) Thomas VA (JC-306347F), 12 Jul 2010

Sub Clk (SD) Murali N (JC-306355A), 03 Jun 2010

Sub Clk (SD) K Bose (JC-306546P), 08 Sep 2010

Sub Clk (SD) James P (JC-306551A), 05 Jul 2010

Sub Clk (SD) Sunil Kumar KM (JC-306556Y), 02 Jul 2010

Sub Clk (SD) V Unnikrishnan (JC-306581X), 02 Aug 2010

Sub Clk (SD) Dasan P K (JC-306621N), 07 Aug 2010

Sub Clk (SD) Prakashan V K (JC-306651L), 02 Sep 2010

Sub Clk (SD) Chandran M (JC-306980F), 01 Sep 2010

Sub Clk (SD) Yado Kutre (JC-306663A), 01 Sep 2010

Sub Clk (SD) Mahendra Pratap Sharma (JC-306664H),  
01 Sep 2010

Sub Clk (SD) Jagadish Yadava (JC-306672F), 05 Oct 2010

Sub Clk (SD) Om Shib Singh (JC-306698W), 04 Oct 2010

Sub Clk (SD) HC Dhyani (JC-306701L), 04 Oct 2010

Sub Clk (SD) Upendra Kumar (JC-306733N), 04 Nov 2010

Sub Clk (SD) Bitto C Kuriakose (JC-306781N), 15 Dec  
2010

Sub Clk (SD) Mahabir Singh (JC-306820F), 01 Nov 2010

Sub Clk (SD) Jai Indra (JC-306835K), 03 Dec 2010

Sub Clk (SD) Shash Pal (JC-306843H), 01 Dec 2010

Sub Clk (SD) Uttam Kumar Mahapatra (JC-307040H),  
22 Dec 2010

## To be Subs Sub Maj SKT

Sub (SKT) Leelu Ram (JC-305963P), 01 Jul 2010

## To be Subs Sub Clks (SD/IM)

Rank/Trade, Name, JC No. and Date of Substantive Promotion

Nb Sub/Clk (SD) Sheo Prasan Mishra (JC-307356P), 02 Mar 2010

Nb Sub/Clk (SD) Sushanta Kumar Sarkar (JC-307827X), 02 Mar 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ashok Das (JC-307539L), 01 Mar 2010

Nb Sub/Clk (SD) Mehta Mukesh Kumar (JC-307695P), 02 Mar 2010

Nb Sub/Clk (SD) Joydeb Dandapat (JC-307999M), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) G Nagarajan (JC-308074H), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) M Ramachandar (JC-308104P), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) K Karunanidhi (JC-308105X), 20 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) VK Madhavan (JC-308106A), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Rabindra Singh (JC-308107H), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Yeole Nanabhau Maruthi (JC-308108L), 28 Jun 2010

Nb Sub/Clk (SD) J Saravanan (JC-308110H), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Elumalai N (JC-308121P), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ganesan A (JC-308122X), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Rajender Kumar (JC-308123A), 01 Apr 2010

Nb Sub/Clk (SD) Anil Kumar (JC-308124H), 01 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Lakhan Pal (JC-308146F), 04 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Suresh Kumar (JC-308168A), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) Karan Singh (JC-308169H), 01 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Phool Singh (JC-308170X), 01 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Suresh Chandra (JC-308193Y), 01 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Sheesh Ram Kulhari (JC-308194F), 01 May 2010

Nb Sub/Clk (SD) Chhoturam (JC-308195K), 01 Jun 2010

Nb Sub/Clk (SD) Sultan Singh Saini (JC-308196M), 01 Jun 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ram Karan Jat (JC-308197P), 01 Jun 2010

Nb Sub/Clk (SD) Vinay Kumar Mishra (JC-308198X), 01 Jun 2010

Nb Sub/Clk (SD) M Raja Moorthi (JC-308330M), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) Nagarajaiah K (JC-308199A), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) Surendara Prasad (JC-308223L), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) P Rajendran (JC-308224N), 01 Jul 2010

Nb Sub/Clk (SD) Vinod Kumar Chavrisiaya (JC-308226Y), 02 Aug 2010

Nb Sub/Clk (SD) Chandra Moule Misra (JC-308227F), 02 Aug 2010

Nb Sub/Clk (SD) Madhu M (JC-308228K), 02 Aug 2010

Nb Sub/Clk (SD) J Prasad Singh (JC-308229M), 02 Aug 2010

Nb Sub/Clk (SD) Devarajan AK (JC-308256W), 02 Aug 2010

Nb Sub/Clk (SD) John Victor Sirra (JC-308257Y), 01 Sep 2010

Nb Sub/Clk (SD) Sunil Kumar Sinha (JC-308258F), 01 Oct 2010

Nb Sub/Clk (SD) Mahesh Singh (JC-308274Y), 01 Oct 2010

Nb Sub/Clk (SD) A Chandra Routray (JC-308275F), 01 Oct 2010

Nb Sub/Clk (SD) Mohan Patil (JC-308277M), 01 Oct 2010

Nb Sub/Clk (SD) Manoj Kundu (JC-308278P), 06 Jan 2011

Nb Sub/Clk (SD) Reji S (JC-308279X), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Kadam Dadasaheb Bandu (JC-308299L), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Shambhu Datt (JC-308300P), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Malikhan Singh (JC-308301X), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Jintendra Kumar Samal (JC-308302A), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Kailash Chandra Sahu (JC-308303H), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Ajaya Kumar Routray (JC-308304L), 04 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Devender Kumar Malik (JC-308305N), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Veer Singh (JC-308315X), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Shubhash Chandra (JC-308316A), 01 Nov 2010

Nb Sub/Clk (SD) Santan Mandal (JC-308317H), 01 Nov 2010  
 Nb Sub/Clk (SD) Ajaikumar PV (JC-308333A), 01 Dec 2010  
 Nb Sub/Clk (SD) Anand Kumar MR (JC-308335L), 01 Dec 2010  
 Nb Sub/Clk (SD) Sanjay Kumar (JC-308337W), 01 Dec 2010  
 Nb Sub/Clk (SD) G Uthirapathi (JC-308338Y), 01 Dec 2010

To be Substantive Sub SKsT

Rank/Trade, Name, JC No. and Date of Substantive Promotion

Nb Sub (Skt) Asharfi Lal (JC-307914L), 01 Jul 2010  
 Nb Sub (Skt) Satyapal Singh (JC-307941P), 01 Jul 2010  
 Nb Sub (Skt) Lajja Ram (JC-307993L), 01 Sep 2010  
 Nb Sub (Skt) Awadhbihari (JC-308032W), 08 Nov 2010  
 Nb Sub (Skt) Suresh Chandra T (JC-308038X), 01 Dec 2010  
 Nb Sub (Skt) Beerli Singh (JC-308120M), 01 Dec 2010

ALKA JOSHI  
 Under Secy

#### (ARMY BRANCH)

No. 467, dated 19th September 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 25 Jun 2010 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

#### (REGULAR ARMY)

#### (PERMANENT COMMISSION)

To be FG Offr (On prob)

Amrita Parmar (MS-14927M)/(AF-27679A) (MR-09146P), AMC, 21 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Gaurav Attri (MS-14928P)/(AF-27681S) (MR-09137N), AMC, 21 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Dheeraj Yadav (MS-15409Y)/(AF-28874G) (MR-09133X), AMC, 12 Oct 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 468, dated 19th September 2011—The President is pleased to permit the undermentioned officers to resign their commission from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC No., Rank, Name, Arms/Ser and Date of resignation

IC-59647 Maj Chaitanya Pandey, EME, 16 May 2010 (AN)

WS-00728 Maj Aman Sharma, Sigs, 27 Dec 2010 (AN)

VANDARA DUBE

Dy Dir  
 MS/PR

#### ARMY BRANCH

No. 469, dated 20th September 2011—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### (ARMY MEDICAL CORPS)

MR-2985K Lt Gen SR Mehta, AVSM, VSM, PC, 31 May 2010 (AN)

MR-3318H Lt Gen P Bhargava, VSM, PC, 31 Aug 2010 (AN)

MR-3848X Maj Gen SK Nema, PC, 28 Feb 2001 (AN)

MR-4036W Maj Gen AK Dubey, VSM, PC, 30 Jun 2010 (AN)

MR-4476K Brig AK Chaudhry, PC, 30 Jun 2010 (AN)

MR-4227L Brig D Saldahna, PC, 30 Jun 2010 (AN)

MR-4238X Brig Anil Khetarpal, PC, 31 Jul 2010 (AN)

MR-3845M Brig AK Lavania, PC, 31 Aug 2010 (AN)

MR-4220F Brig Rakesh Kushwaha, PC, 30 Nov 2010 (AN)

NTR-16369P Brig YS Guleria, PC, 30 Apr 2010 (AN)

MR-5608Y Col NK Biswas, PC, 28 Feb 2011 (AN)

MR-4622Y Col AM Prabhakara, PC, 31 May 2010 (AN)

MR-3458P Col Vijay Taode, PC, 31 Aug 2010 (AN)

MR-4494M Col PM Bedekar, PC, 31 Oct 2010 (AN)  
 MR-4544M Col R Muralidhar, PC, 31 Jan 2011 (AN)  
 MR-4235K Col SS Purai, PC, 31 Aug 2010 (AN)  
 MR-4505N Col JN Lakhe, PC, 30 Sep 2010 (AN)  
 MR-4303M Col BK Gupta, PC, 30 Sep 2010 (AN)  
 MR-4388N Col Harish Tuteja, PC, 31 Jan 2011 (AN)  
 MR-5767W Col Hemant Kumar, PC, 31 Dec 2010 (AN)  
 MR-4475F Col Sanjay Garg, PC, 31 Jan 2011 (AN)  
 MR-5388A Col LC Chamania, PC, 31 Dec 2010 (AN)  
 MR-5078P Col MM Singh, PC, 31 Jan 2011 (AN)  
 MR-4555Y Col PC Sharma, PC, 30 Nov 2010 (AN)  
 MR-3529L Col VK Nayar, PC, 31 Oct 2010 (AN)  
 MR-4120W Col PK Bhatia, PC, 31 Oct 2010 (AN)  
 MR-4841A Col LN Agarwal, PC, 31 Oct 2010 (AN)  
 MR-3887W Col MS Chahal, VSM, PC, 30 sep 2010 (AN)  
 NTR-16489N Col GS Riar, PC, 30 Apr 2010 (AN)

YASH PANDE  
 Brig  
 Dy DG AFMS (HR)

#### ARMY BRANCH

No. 470, dated 20th September 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

#### REGULAR ARMY

#### SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

#### CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence notification, published on 12 Feb 2011 under the heading “Short Service

Commission (on Probation)” in Regular Army is here by amended as under :—

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43993X  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43994A  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43995H  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43997N  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43998W  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-43999Y  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-44000A  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-44001H  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-44002L  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

Date of SSC (on probation) against Personal No. SS-44003N  
 For — 03 May 2009

Read 15 Jul 2009

PK SHASTRI  
 Maj  
 AMS 8B